

Jamna Auto Industries Ltd.

July 19, 2023

To, To

BSE Limited National Stock Exchange of India Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Exchange Plaza, Plot no. C/1, G Block,

Mumbai- 400001 Maharashtra

Exchange Fiaza, Flot no. C/1, G Block,
Bandra-Kurla Complex, Bandra (E)

Mumbai - 400051, Maharashtra

BSE Code: 520051 NSE Code: JAMNAAUTO

<u>Subject: Newspaper Advertisement- Communication to Shareholders for deduction of tax at source on Final dividend payout for the Financial Year ("F.Y.") 2022-23.</u>

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 30 and 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find attached herewith the copy of newspaper advertisements with respect to communication to Shareholders for deduction of tax at source on Final dividend payout for the Financial Year ("F.Y.") 2022-23 published in The Financial Express (Chandigarh & Delhi Edition) and Jansatta (Chandigarh & Delhi Edition) dated July 19, 2023.

You are requested to take the same on your records.

Thanking you, Yours faithfully, For Jamna Auto Industries Limited

Praveen Lakhera Company Secretary & Head-Legal

(रुपये बत्तीस

लाख चालीस

हजार मात्र)

रु.1720000/−,

(रुपये सत्रह

लाख बीस

हजार मात्र)

रु. 1930000/-

(रुपये उन्नीस

लाख तीस हजार

मात्र)

रु.1570000/−.

(रुपये पन्द्रह

लाख सत्तर

हजार मात्र)

रु.1540000/-

(रुपये पन्द्रह

लाख चालीस

हजार मात्र)

रु.1500000/−

(रुपये पन्द्रह

लाख मात्र)

रु.1560000/−,

(रुपये पन्द्रह

लाख साठ

हजार मात्र)

रु.1820000/-

(रुपये अठारह

लाख बीस

हजार मात्र)

रु.1190000/−,

(रुपये ग्यारह

लाख नब्बे

हजार मात्र)

रु.8010000/−,

(रुपये अस्सी

लाख दस

हजार मात्र)

रु.1580000/−,

(रुपये पन्द्रह

लाख अस्सी

हजार मात्र)

रु.3340000/-

(रुपये तैंतीस

लाख चालीस

हजार मात्र)

रु. 1840000/−.

(रुपये अठारह

लाख चालीस

हजार मात्र)

रु.1770000/−

(रुपये सत्रह

लाख सत्तर

हजार मात्र)

रु.3740000/−

(रुपये सैंतीस

लाख चालीस

हजार मात्र)

रु.1650000/-

(रुपये सोलह

लाख पचास

हजार मात्र)

रु.1810000/−

(रुपये अठारह

लाख दस हजार

मात्र)

रु.1720000/-

(रुपये सत्रह

लाख बीस

हजार मात्र)

रु.228000/-

(रुपये बाईस

लाख अस्सी

हजार मात्र)

रु.4010000/−,

(रुपये चालीस

लाख दस हजार

मात्र)

रु. 4180000/-

(रुपये

इकतालीस

लाख अस्सी

हजार मात्र)

रु. 16520000/-

(रुपये एक

करोड़ पैंसठ

लाख बीस हजार

मात्र)

ह./- (अधिकृत प्राधिकारी) पीरामल कैपिटल एण्ड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

(रुपये तीन

लाख चौबीस

हजार मात्र)

रु. 172000/−

(रुपये एक

लाख बहत्तर

हजार मात्र)

रु. 193000/−

(रुपये एक

लाख तिरानवे

हजार मात्र)

रु. 157000/−

(रुपये एक

लाख सत्तावन

हजार मात्र)

रु. 154000/-

(रुपये एक

लाख चौवन

हजार मात्र)

. 150000/-

(रुपये एक

लाख पचास

हजार मात्र)

रु. 156000/−,

(रुपये एक

लाख छप्पन

हजार मात्र)

रु. 182000/−

(रुपये एक

लाख बयासी

हजार मात्र)

रु. 119000/-

(रुपये एक

लाख उन्नीस

हजार मात्र)

रु. 801000/−,

(रुपये आठ

मात्र)

रु. 158000/−

(रुपये एक

लाख अट्टावन

हजार मात्र)

₹. 334000/-

(रुपये तीन

लाख चौंतीस

हजार मात्र)

रु. 184000/-

(रुपये एक

लाख चौरासी |

हजार मात्र)

रु. 177000/-

(रुपये एक

लाख सतहत्तर

हजार मात्र)

रु. 374000/-

(तीन लाख

चौहत्तर हजार

मात्र)

रु. 165000/-

(रुपये एक

लाख पैंसठ

हजार मात्र)

रु. 181000/-

(रुपये एक

लाख इक्यासी

हजार मात्र)

रु. 172000/−

(रुपये एक

लाख बहत्तर

हजार मात्र)

रु. 228000/-

(रुपये दो लाख

अट्टाईस हजार

मात्र)

रु. 401000/−,

(रुपये चार

लाख एक हजार

मात्र)

रु. 418000/−,

(रुपये चार

लाख अठारह

हजार मात्र)

रु. 1652000/,

(रुपये सोलह

लाख बावन

हजार मात्र)

(रुपये छत्तीस लाख

इकसर हजार आर

सौ चौंतीस मात्र)

रु.2264797/−,

(रुपये बाईस लाख

चौसठ हजार सात

सौ सत्तानबे मात्र)

रु.2407193/−,

(रुपये चौबीस लाख

सात हजार एक सै

तिरानबे मात्र)

रु.1122533/−

(रुपये ग्यारह लाख

बाईस हजार पांच सं

तैंतीस मात्र)

रु.1534405/-

(रुपये पन्द्रह लाख

चौंतीस हजार चार

सौ पांच मात्र)

रु.1851006/-

(रुपये अठारह लाख

इक्यावन हजार छह

मात्र)

रु.2385657/−

(रुपये तेईस लाख

पिचासी हजार छह

सौ सत्तावन मात्र)

रु.2307385/-

(रुपये तेईस लाख

सात हजार तीन सौ

पचासी मात्र)

रु.1404634/−

(रुपये चौदह लाख

चार हजार छह सौ

चौंतीस मात्र)

रु.10005232/-

(रुपये एक करोड़

पाच हजार दा र

बत्तीस मात्र)

रु.3327024/−

(रुपये तैंतीस लाख

सत्ताईस हजार

चौबीस मात्र)

₹.8449956/-

(रुपये चौरासी लाख

उनचास हजार नौ सं

छप्पन मात्र)

रु.2623077/-

(रुपये छब्बीस लाख

तेईस हजार सतहत्त

मात्र)

रु.2540298/-

(रुपये पच्चीस लाख

चालीस हजार दो सै

अट्टानबे मात्र)

रु.3217340/-

(रुपये बत्तीस लाख

सत्रह हजार तीन सं

चालीस मात्र)

रु.2355361/-

(रुपये तेईस लाख

पचपन हजार तीन

सौ इकसठ मात्र)

रु.2638851/−

(रुपये छब्बीस लाख

अडतीस हजार आ

सौ इक्यावन मात्र)

रु.2085579/-

(रुपये बीस लाख

पचासी हजार पांच

सौ उन्यासी मात्र)

रु.1435739/-

(रुपये चौदह लाख

पैंतीस हजार सात र

उनतालीस मात्र)

रु.978602/−, (रुपये नौ लाख

अठहत्तर हजार छह

सौ दो मात्र)

रु.3463472/−,

(रुपये चौंतीस लाख

तिरसठ हजार चार

सौ बहत्तर मात्र)

रु. 608969/-

(रुपये छह लाख

आठ हजार नौ सौ

उनहत्तर मात्र)

रु.1179884/−,

(रुपये ग्यारह लाख

उन्यासी हजार आठ

सौ चौरासी मात्र)

तथा रु. 3543300/-

(रुपये पैंतीस लाख

तैंतालीस हजार तीन

रु.15227192/-

(रुपये एक करोड़

बावन लाख सत्ताईर

हजार एक सौ बानबे

मात्र)

तथा

रु. 4759988/-

(रुपये सैंतालीस



🗫 जामना ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड सीआईएन: L35911HR1965PLC004485 पंजीकृत कार्यालयः जय स्प्रिंग्स रोड, औद्योगिक क्षेत्र, यमुना नगर— 135001, हरियाणा टेलीफोन नं: 01732-251810/11/14 कॉर्पोरेट कार्यालयः यूनिट नं 408, चौथी मंजिल, टावर-बी, वाटिका माइंडस्केप्स, सेक्टर-27डी, एनएच2, फरीदाबाद 121003(हरियाणा) दूरभाष. 0129-4006885; ईमेल आईडी: investor.relations@jaispring.com

वेबसाइटः www.jaispring.com एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल ने 29 मई 2023 को आयोजित

अपनी बैठक में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए प्रत्येक 1 रुपये के नाममात्र मूल्य के प्रति इक्विटी शेयर रू.1.10 (एक रूपये दस पैसे) का अंतरिम लाभांश आगामी 57वीं वार्षिक आम बैठक में सदस्यों के अनुमोदन के अधीन घोषित किया है और लाभांश प्राप्त करने के लिए पात्र शेयरधारकों को निर्धारित करने के लिए रिकॉर्ड तिथि के रूप में शुक्रवार, 21 जुलाई 2023 को निर्धारित किया गया। वित्त अधिनियम, 2020 के प्रावधानों के साथ पठित और द्वारा संशोधित आयकर अधिनियम, 1961

के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी को अपने शेयरधारकों को भूगतान किए जाने वाले लाभांश पर निर्धारित दरों पर करों को रोकना होगा। स्थगित किए कर दर शेयरधारक की आवासीय स्थिति और उनके द्वारा जमा किए गए एवं कंपनी द्वारा स्वीकार किए गए दस्तावेजों के आधार पर अलग-अलग होगी। तदनुसार, निर्धारित दरों पर स्रोत पर कर रोक कर अंतरिम लाभांश का भगतान किया जाएगा। इच्छक सदस्य विदहोल्डिंग टैक्स (डीटीएए / आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार) की लाभकारी

या रियायती दर का दावा करना चाहते हैं, उन्हें ऐसी लाभकारी या रियायती दरों का लाभ उठाने के लिए कंपनी की वेबसाइट यानी https://www.jaispring.com/assets/investorrelation/corporate governance/tax-exemption-form-for-TDS.pdf पर निर्धारित दस्तावेज जमा करने होंगे। दस्तावेज, जैसा लागू हो, कंपनी या स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ("रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट")को उनके ई–मेल–आईडी यानी investor.relations@jaispring.com vkSj@;k parveen@skylinerta.com पर कट-ऑफ तारीख तक या से पहले यानी 25 जलाई 2023 से पहले कंपनी को उचित विदहोलिंडग टैक्स दरों का निर्धारण करने में सक्षम बनाने के लिए उपलब्ध कराए जाने चाहिए। अंतरिम लाभांश के भुगतान के लिए 25 जुलाई 2023 के बाद प्राप्त कर निर्धारण / कटौती पर किसी भी संचार पर विचार नहीं किया जाएगा। विदहोलिंडग टैक्स की उचित दरों का निर्धारण करने के लिए कंपनी को दस्तावेजों का मिलान करने में सक्षम बनाने के लिए जल्द से जल्द दस्तावेज उपलब्ध कराने की सलाह दी जाती है। लाभकारी या रियायती कर दरों का आवेदन सदस्यों द्वारा प्रस्तृत दस्तावेजों की पूर्णता और कंपनी की संतुष्टि के लिए समीक्षा पर निर्भर करेगा। उक्त पत्र सभी सदस्यों को उनके पंजीकृत ईमेल आईडी पर भेजा जा रहा है और उसकी प्रति

कंपनी की वेबसाइट www.jaispring.com पर भी उपलब्ध है। कृते जामना ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड

दिनांकः 18 जुलाई 2023

स्थानः नई दिल्ली

[देखें विनियमन-15(1)(ए)] 16(3

कंपनी सचिव और प्रमुख-कानूनी

हस्ता /-

प्रवीण लखेड़ा

ऋण वसली अधिकरण चंडीगढ़ (डीआरटी 2) 1ला तल, एससीओ-33-34-45, सेक्टर-17ए, चंडीगढ़ (3रे एवं 4थे तल पर भी अतिरिक्त स्थान आबंटित) मामला सं. ओए/1716/2021 एक्जि नं.19286 ऋण वसूली अधिकरण (प्रक्रिया) नियमावली, 1993 के नियम 5 के उप-नियम (2ए) के साथ पठित अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (4) के अंतर्गत समन्स

युनियन बैंक ऑफ इंडिया मै. असलम टायर क.

1. मै. असलम टायर क. डी/डब्ल्यू/एस/ओ–उमर मोहम्मद, एच.नं. 181, वार्ड नं., टेलीफोन एक्सचैंज के

सामने, दिल्ली-अलवर रोड, सोहना, गृडगांव, हरियाणा। 2. उमर मोहम्मद, पुत्र श्री रसूल खान, एच.नं. 168, ग्राम रेवासन मेवात, नूह, फरीदाबाद, हरियाणा 3. श्रीमती नरा, पत्नी श्री रसल खान, 168, ग्राम रेवासन मेवात, नह, फरीदाबाद, हरियाणा

4. श्रीमती जुबेदा, पत्नी श्री उमर मोहम्मद, 168, ग्राम रेवासन मेवात, नूह, फरीदाबाद, हरियाणा जैसा के ओए/1716/2021 दिनांक 1.07.2023 को माननीय पीठासीन अधिकारी/रजिस्ट्रार के समक्ष सूचीबद्ध

जैसा कि माननीय अधिकरण रु. 2770094/- के ऋणों की वसुली के लिए दाखिल (ओए) में अधिनियम की धारा 19(4) के अंतर्गत उक्त आवेदन पर समन्स/सचना सहर्ष जारी किया है। (दस्तावेजों आदि की प्रतियो के साथ आवेदन संलग्न)

अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (4) के अनसार प्रतिवादियों को निम्न निदेश दिया जाता है। i) समन्स की सर्विस के तीस दिनों के भीतर यह कारण दर्शाएं की मांगी गई राहतों को क्युं न स्वीकार की

सम्पत्ति या परिसम्पत्तियों के विवरणों को उद्घाटित करना iii) सम्पत्तियों के एटैचमेन्ट के लिए आवेदन की सुनवाई तथा निपटारे के लम्बित होने की स्थिति में मुल आवेदन के क्रमांक 3ए के अंतर्गत उद्घाटित किसी अन्य परिस्थितियों एवं सम्पत्तियों अथवा प्रतिभृत

ii) मुल आवेदन के क्रमांक 3 ए के अंतर्गत आवेदक द्वारा निर्दिष्ट सम्पत्तियों तथा परिसम्पत्तियों के अतिरिक्त

परिसम्पत्तियों का व्यवसाय या निपटारा करने से आपको वंचित किया जाता है। vi) आप अधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया के अतिरिक्त ऐसी किसी र्भ परिसम्पत्तियों जिस पर प्रतिभित हित निर्मित है एवं/ अथवा मल आवेदन के क्रमांक 3ए के अन्तर्गत निर्दिष्ट

या उद्घाटित किसी अन्य परिसम्पत्तियों या सम्पत्तियों का बिक्री, पट्टा या अन्य रूप से आप अंतरण नहीं करेंगे। v) आप प्रतिभृत परिसम्पत्तियों या व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में अन्य परिसम्पत्तियों तथा सम्पत्तियों अथव प्रतिभृत परिसम्पत्तियों की बिक्री द्वारा उगाही की गई बिक्री राशि का ब्यौरा देने तथा ऐसी परिसम्पत्तियो पर प्रतिभृति हित धारित करने वाले बैंक या वित्तीय स्थानों में प्रबंधित खाता में उक्त बिक्री राशि जमा

आपको यह भी निर्देश दिया जाता है कि आप लिखित स्पष्टीकरण दें तथा उसकी एक प्रति आवेदक के पास प्रस्तुत करें तथा 5.10.2023 को 10.30 को पूर्वा. में रजिस्ट्रार के समक्ष उपस्थित हों, अन्यथा आवेदन की सुनवाई तथा निर्णय आपकी अनुपस्थिति में की जाएगी। मेरे हाथ से तथा अधिकरण की मृहर लगाकर आज दिनांक 17.07.2023 को दी गई।

समन जारी करने के लिये अधिकत अधिकारी का हस्ताक्षर

दक्षिण रेलवे

अधोलिखित निविदायें आईआरईपीएस वेबसाइट में प्रकाशित है। फर्मों से आग्रह है कि http://www.ireps.gov.inlogin>E Tender-goods & service (new) पर लॉगिन करें तथा इन निविदाओं के लिये कोट करें। इन निविदाओं

करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

के लिये मैन्यअल कोटेशनों पर विचार नहीं होगा। सभी निविदाओं के बंद होने का समय 14.30 बजे है। क्रम सं. एचएसडी ऑयल फायरिंग सिस्टम 52235561 24/07/2023

4.00	02230301		24/07/2023
2.	26232612A	आईओएच किट	25/07/2023
3.	06224309D	मिल निर्मित बेड शीट	25/07/2023
4.	26232616A	पीओएच रिप्लेसमेन्ट किट	25/07/2023
5.	44230605	डोर वे क्रॉस बार	26/07/2023
6.	04230059B	एम्सल बॉक्स हाउसिंग	27/07/2023
7.	02235603	एरिथ्रोपोईटीन इंजे.	28/07/2023
8.	0623FDAS-PGT	फायर डिटैक्शन का डिजायन, आपूर्ति, संस्थापन	28/07/2023
9.	11235008	हेवी ड्यूटी यात्री लिफ्ट	28/07/2023
10.	04231090	रबड़ पैड	28/07/2023
11.	78235940	पी.सी.बी. डायनोस्टिक टेस्ट सिस्टम	28/07/2023
12.	02235602	मेटोप्रोलोल ओरल टैब्लेट	31/07/2023
13.	02235620	एसीटाइल सेलीसाइकिल एसीड (एस्पीरिन) टैव	31/07/2023
14.	04230108	विअरिग पिस	31/07/2023
15.	52235580	सिंगल पैक पीयू का एस 7ए	31/07/2023
16.	90236448	लैंडर ट्रॉली	31/07/2023
17.	90236181	्र आपूर्ति, संस्थापन-हाइड्रॉलिक रेस्क्यू डिवायस	31/07/2023
18.	06231137	सर्वोप्लेक्स	01/08/2023
19.	11230574	ब्रशलेस डीसी	01/08/2023
20.	26233458	थिन वाल्ड इलेक्ट्रॉन बीम	01/08/2023
_	-	2X130 केवीए स्टैटिक इन्बर्टर	
21.	26235007	2X 130 कवाए स्टाटक इन्वटर कॉप्लर बाडी	01/08/2023
22.	44230241B	ब्रेक कॉन्टैक्ट्स पार्ट फिनीश्ड	01/08/2023
23.	52235507	हाई कैपेसिटी ड्राफ्ट गियर	01/08/2023
24.	68236048	सील्ड ग्लास यूनिट	01/08/2023
25.	04231066	एक्सल बॉक्स हाउसिंग	02/08/2023
26.	26232717	एटॉरवैस्टेटिन ओरल टैब	03/08/2023
27.	02235627		03/08/2023
28.	02235655	लिनाग्लिपटिन 5एमजी टैब	03/08/2023
29.	78235997	यॉक पिन	03/08/2023
30.	26231162	नॉमिनल साइज कास्ट आयरन ब्रेक शू	04/08/2023
31.	02235660	मेटफोर्मिन 1000 एमजी	04/08/2023
32.	02235661	रिबोसिविलब 200 एमजी टैब	04/08/2023
33.	02235662	िलमिपरायड 2 एमजी टैब	04/08/2023
34.	44230038	एन्हैन्सु कैपासिटी साइड बफर प्लंजर	04/08/2023
35.	53235127A	सेन्ट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम की आपूर्ति एवं संस्थापन	04/08/2023
36.	02235666	एडलीमुमैब 40 एमजी इंज.	07/08/2023
37.	26232734A	एक्सल बॉक्स हाउसिंग	07/08/2023
38.	01230227B	सिलिण्ड्रिकल रॉलर बिअरिंग	07/08/2023
39.	02235663	इंसूलिन ग्लैरजाइन 100 आईयू	07/08/2023
40.	02235665	इलेट्रॉम्बोपैग ओलामाइन 50 एमजी	07/08/2023
41.	11231039	बी चेक किट	07/08/2023
42.	02235664	विटामिन बी1, बी6 आदि	07/08/2023
43.	78236028	एडाप्टर बाइड जॉ	07/08/2023
44.	03235260	कटर चैन एसेम्बली	08/08/2023
45.	53235249	रोटेशनल अर्थेरेक्टॉमी सिस्टम	08/08/2023
46.	04231164	सेकण्डरी लेटरल डम्पर	09/08/2023
47.	78236093	फ्रिक्शन बेड्ज-बीएलसी एवं बीएफकेएन	09/08/2023
48.	78235531B	डिजायन, निर्माण, आपूर्ति	09/08/2023
49.	06235001B	मिनिमली इन्वेसिव स्पाइनल इन्स्टुमेन्ट्स	10/08/2023
50.	78235993	फोर्ज्ड डोर हिंज	10/08/2023
51.	04230161	एन्कर लिंक 451 एमएम	11/08/2023
52.	11235007	अन्ट्रन्सुलेटेड कैडिमियम कॉपर	14/08/2023
53.	78235732	वाल्व रेग्युलेटेड लीड एसीड बैट्टीज 1100	16/08/2023
54.	78236082	160 केएन एयर स्प्रिंग, एलएचबी बॉगी के लिये	16/08/2023
Market C	3020002	म्बर्ग इत्तर ।रज्ञानु इराइअभा भागा का ।राव	10.00.2020

283000000287,

रोहतक (शाखा), राधे प्रसाद

(कर्जदार), बबीता

(सह–कर्जदार 1)

ऋण कोड संख्या

01400003593,

नई दिल्ली (शाखा), रमेश

(कर्जदार), करण चंद्र आर्य

(सह-कर्जदार 1)

ऋण कोड संख्या

19800041679,

दिल्ली- पीतमपुरा (शाखा),

मोहम्मद साबिर अंसारी

(कर्जदार), नूरी बेगम

(सह-कर्जदार 1)

ऋण कोड संख्या

27300000416,

द्वारका (शाखा), प्रवीण चंद्रन

(कर्जदार), सुधा चंद्रन

(सह-कर्जदार 1)

ऋण कोड संख्या

20000043072,

नोएडा- सेक्टर 2 (शाखा),

जहांगीर (कर्जदार), राबिया बेगम

(सह–कर्जदार 1)

20

26-07-2019,

रु. 2168225/−,

(रु. इक्कीस लाख

अड़सठ हजार दो सौ

पच्चीस मात्र)

दिनांकः

20-07-2021,

रु. 1259132/−,

(रुपये बारह लाख

उनसठ हजार एक सौ

बत्तीस मात्र)

दिनांकः

28-06-2021,

रु. 1163836/−,

(रुपये ग्यारह लाख

तिरसठ हजार आठ सौ

छत्तीस मात्र)

दिनांकः

16-06-2021,

रु. 1295878/−,

(रुपये बारह लाख

पंचानवे हजार आठ सौ

अठहत्तर मात्र)

दिनांकः

16-06-2021,

रु. 1746589/−,

(रुपये सत्रह लाख

छियालीस हजार पांच

सौ नवासी मात्र)

मकान संख्याः 631, सेक्टरः 2-3-4

हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, अपराध शाखा

कार्यालय के पास, रोहतक,

हरियाणाः- 124001

अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त

भाग : फ्लैट नंबर 800 दूसरी मंजिल डी

डी ए जनता फ्लैट पॉकेट बी सेक्टर 16 बी

द्वारका नई दिल्ली दिल्ली:-110075

अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त

भाग : आरजेडएच-299-ए, दूसरी

मंजिल, पीछे की ओर गली नंबर 10ए,

राज नगर-क्क्र पालम कॉलोनी, नई

दिल्ली, नई दिल्ली दिल्ली:-110002

अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त

भाग : आरजेड-232-बी/2, तीसरी

मंजिल रियर एलएचएस, छत के अधिकार

के साथ खसरा नं. 55/16 और 54/21/1,

ग्राम पालम, राज नगर-2 दिल्ली नई

दिल्ली दिल्ली:-110045

अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त

भाग : संपत्ति संख्या 1279-ए/8 ऊपरी

भृतल पीछे की ओर खसरा नंबर 93 गली

नंबर 8 गोविंदपुरी कालकाजी, दिल्ली नई

दिल्ली दिल्ली -110019

(रुपये पच्चीस

लाख पचास

हजार मात्र)

रु.1500000/−,

(रुपये पन्द्रह

लाख मात्र)

रु. 1010000/−

(रुपये दस लाख

दस हजार

मात्र)

रु.2190000/−,

(रुपये इक्कीस

लाख नब्बे हजार

रु.1720000/−,

(रुपये सत्रह

लाख बीस हजार

रु. 255000/-

(रुपये दो लाख

पचपन हजार

मात्र)

रु. 150000/-

(रुपये एक

लाख पचास

हजार मात्र)

रु. 101000/-

(रुपये एक

लाख एक हजार

मात्र)

रु. 219000/-

(रुपये दो लाख

उन्नीस हजार

मात्र)

रु. 172000/-

(रुपये एक

लाख बहत्तर

हजार मात्र)

(रुपये इक्कीस लाख

उन्नीस हजार सात

स्थान : दिल्ली, तिथि : 19.07.2023

प्रधान मुख्य सामग्री प्रबंधक Follow us on : witter.com/GMSRailways

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

www.readwhere.com

									স্ব	नसता
1(Piramal	पंजीकृत कार्यालय : यूनि फायर स्टेशन	ल कैपिटल एण्ड हाउसि (पूर्व की देवन हाउसिंग फाइनेंस सीआईएन : L65910MH1984 वट नंबर -601, 6ठी मंजिल पीरामल एमिटी बिरि के सामने, एलबीएस मार्ग, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई शाखा कार्यालयः प्लॉट नं. 6, ब्लॉक ए, सेव 1899216466, 2. नवीन कपूर - 9810854841, 3.	कॉर्पोरेशन लिग्नि PLC032639 न्डंग, पीरामल अगस्त -400070 -दूरभाष टर -2, नोएडा-201	मेटेड) य कॉपोरेंट पार्क, का : +91 22 3802 40 301	मानी जंक्शन,	24	ऋण कोड संख्या 19600043023, दिल्ली – सफदरजंग (शाखा), अनीश के मैथ्यू (कर्जदार), रोमी अनीश आर (सह-कर्जदार 1)	दिनांकः 16-06-2020, रु. 2381922/-, (रुपये तेईस लाख इक्यासी हजार नौ सौ बाईस मात्र)	अग्रलिखित सम्पत्ति का सम् भाग : - फ्लैट नंबर 475 पहल दूसरी मंजिल, हाउसिंग बोर्ड व सेक्टर 51 गुड़गांव गुड़गां हरियाणाः- 122002
पीरा में भ	धारक/ को से बकाये राशि की व मल कैपिटल एण्ड हाउसिंग फाइनें	इ-नाला सूला क लिय वित्ताय पार स लिमिटेड (पूर्व की डीए सम्पत्ति की ''जैसा है ज	मा ि	1971 तथा प्रतिभूति हिर हां नीचे वर्णित प्री	त प्रवत्तेन अधिनिय तेभूत परिसम्पत्ति वे	h कब्जे के अनुपालन	Ш	ऋण कोड संख्या 26600001645, दिल्ली राजौरी गार्डन (शाखा), निशा गुप्ता (कर्जदार), राज पुरूषोत्तम पोथगंती (सह-कर्जदार 1)	दिनांकः 24-05-2021, रु. 2166026/-, (रुपये इक्कीस लाख छियासठ हजार छब्बीस मात्र)	अग्रलिखित सम्पत्ति का सम् भाग : पी.नं. सी–53 और 54 मंजिल सामने की ओर खस्प 10/25, ग्राम मटियाला, ब्लॉव सैनिक नगर, उत्तम नगर नई नई दिल्ली :- 110059
क्र. सं.	ऋण कोड शाखा/ कर्जदार(रों)/सह-कर्जदार(रों)/ जमानती(यों) ऋण कोड संख्या 13000002424, गुड़गांव (शाखा),	मांग सूचना की तिथि एवं राशि दिनांकः 24-05-2021, रु. 2457471/-,	सम्पत्ति का पता-अन्तिम अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भाग : पुरानी संख्या 601/7ए तीसरी मंजिल छत के अधिकार के साथ खसरा	आरक्षित मूल्य रु. 2000000/-, (रुपये बीस लाख मात्र)	जमा धरोहर राशि (ईएमडी) (आरपी का 10%) रु. 200000/-, (रुपये दो लाख मात्र)	(13-07-2023) • • • • • • • • • •	90	ऋण कोड संख्या 19800041649, दिल्ली- पीतमपुरा (शाखा), मनोज कुमार मलिक (कर्जदार),	दिनांकः 12-05-2021, रु. 1820003/-, (रुपये अठारह लाख बीस हजार तीन मात्र)	अग्रलिखित सम्पत्ति का सम् भाग : प्लॉट नंबर आरजेड- 4 के अधिकार के साथ तीसरी खसरा नंबर 20/22, टी-ब्लॉग् मटियाला, जैन कॉलोनी भाग
2	अनुज कुमार जैन (कर्जदार), विवेक कुमार जैन (सह-कर्जदार 1) सरला जैन (सह-कर्जदार 2) चक्रेश जैन (गारंटर 1) ऋण कोड संख्या 26600001205,	(रुपये चौबीस लाख सत्तावन हजार चार सौ इकहत्तर मात्र) दिनांकः	नं593, नया पी.नं850, गली नंबर 7 ए, अशोक नगर, मंडोली रोड, शाहदरा दिल्ली नई दिल्ली दिल्लीः 110018. अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त	₹. 1990000/-,	₹. 199000/-,	सौ पिचासी मात्र) रु.1910360/-,	27	अमिता मलिक (सह-कर्जदार 1) ऋण कोड संख्या 13000001589, गुड़गांव (शाखा), मंजू (कर्जदार),	बास हजार तान मात्र) दिनांकः 12-05-2021, रु. 1319511/-,	ब्लॉक एक्सटेंशन, उत्तम नगर न दिल्लीः – 110059 अग्रलिखित सम्पत्ति का सम् भाग : फ्लैट नंबर 427 ग्राउं ब्लॉक बी जनता फ्लैट पॉकेट प्
	दिल्ली राजौरी गार्डन (शाखा), मोहम्मद सिराजुल (कर्जदार), रायसा बेगम (सह-कर्जदार 1)	24-05-2021, रु. 1630701/-, (रुपये सोलह लाख तीस हजार सात सौ एक मात्र)	भाग : डब्ल्यूजेड- 283/26, ऊपरी भूतल, प्लॉट नंबर 26, खसरा नंबर 19/12, गली नंबर 2, गांव ख्याला, विष्णु गार्डन एक्सटेंशन, दिल्ली नई दिल्ली दिल्ली:-110018	(रुपये उन्नीस लाख नब्बे हजार मात्र)	(रुपये एक लाख निन्यानबे हजार मात्र)	(रुपये उन्नीस लाख दस हजार तीन सौ साठ मात्र)	28	राकेश कुमार (सह-कर्जदार 1)	(रूपये तेरह लाख उन्नीस हजार पांच सौ ग्यारह मात्र) दिनांकः 28-06-2021,	03 रोहिणी नई दिल्ली नई ि दिल्लीः – 110085 अग्रलिखित सम्पत्ति का सम् भाग : जिनकी सीमा है:-प्लॉट
3	ऋण कोड संख्या 09200001827, रोहिणी (शाखा), राजेंदर सिंह (कर्जदार), हरप्रीत कौर (सह-कर्जदार 1)	दिनांकः 26-07-2019, रु. 1573802/-, (रुपये पन्द्रह लाख तिहत्तर हजार आठ सौ दो मात्र)	अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भाग: म.नं. 69-बी, छत के अधिकार के साथ तीसरी मंजिल, नवयुग ब्लॉक, खसरा नंबर 35/8/1, वंदना मॉडल स्कूल के पास, विष्णु गार्डन, दिल्ली नई दिल्ली दिल्ली:- 110018		रु. 210000/-, (रुपये दो लाख दस हजार मात्र)	रु.2638267/-, (रुपये छब्बीस लाख अड़तीस हजार दो सौ सड़सठ मात्र)	29	दिल्ली जनकपुरी (शाखा), एंसी विलियम (कर्जदार), तापस मैत्रा (सह कर्जदार 1) तापस मैत्रा (सह कर्जदार 2) ऋण कोड संख्या	रु. 1202830/-, (रुपये बारह लाख दो हजार आठ सौ तीस मात्र)	ए-66, तीसरी मंजिल, पीछे की के अधिकार के साथ, ब्लाक- नंबर-17, खसरा नंबर 109/१ पालम राजा पुरी उत्तम नगर , नई दिल्ली दिल्ली:-1100 अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त
4	ऋण कोड संख्या 133000001028, कनॉट प्लेस (शाखा), मोनिका गुप्ता (कर्जदार), जेम्स माइकल (सह-कर्जदार 1)	दिनांकः 28-06-2021, रु. 2031110/-, (रुपये बीस लाख इकतीस हजार एक सौ	अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भाग : फ्लैट नंबर ए – 3, दूसरी मंजिल एलएचएस भाग खसरा नंबर 820/3 और 823 का हिस्सा, विस्तारित लाल डोरा आबादी गांव बुराड़ी, दिल्ली उत्तर पश्चिम	रु. 2040000/-, (रुपये बीस लाख चालीस हजार मात्र)	रु. 204000/-, (रुपये दो लाख चार हजार मात्र)		30	27300000366, द्वारका (शाखा), महेश कुमार (कर्जदार), ज्योति वर्मा (सह-कर्जदार 1) ऋण कोड संख्या	12-05-2021, रु. 1388798/-, (रूपये तेरह लाख अट्टासी हजार सात सौ अट्टानबे मात्र) दिनांकः	डब्ल्यूजेड- 493-ए/1, प्रथम (एलएचएस) गली नंबर 16, नंबर 94/10/2 साध नगः पालम कॉलोनी दिल्ली नई वि दिल्ली -110045 अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त
5	ऋण कोड संख्या 19000001987, राज नगर (शाखा), राजीव कुमार (कर्जदार), संजना	दस मात्र) दिनांकः 20-07-2021, रु. 1345241/-, (रूपये तेरह लाख	दिल्ली दिल्ली:-110084 अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भाग : - संपत्ति संख्या आरजेड-86, तीसरी मंजिल पीछे की ओर खसरा संख्या 501 गली नंबर-13, तुगलकाबाद	रु.1330000/-, (रुपये तेरह लाख तीस हजार मात्र)	रु. 133000/-, (रुपये एक लाख तैंतीस हजार मात्र)	रु.1796029/-, (रुपये सत्रह लाख छियानवे हजार उनतीस मात्र)	2	13100002245, नोएडा 1 राजेंद्र प्लेस (शाखा), नईम अहमद (कर्जदार), अंजुम सलमानी (सह–कर्जदार 1)	12-05-2021, रु. 1820333/-, (रुपये अठारह लाख बीस हजार तीन सौ तैंतीस मात्र)	सम्पत्ति नंबर-2-ए, पहली मंजि छत के अधिकार के, ब्लॉक-ए नं105/4/2, गली नंबर-04 पालम विश्वास पार्क एक्सटे उत्तम नगर नयी दिल्ली नई रि दिल्ली :- 110059
6	(सह-कर्जदार 1) ऋण कोड संख्या 19700043928, गुड़गांव - सोहना रोड (शाखा), परवीन (कर्जदार), पूजा कुमारी	पैंतालीस हजार दो सौ इकतालीस मात्र) दिनांकः 23-04-2019, रु. 3013874/-, (रूपये तीस लाख तेरह	एक्सटेंशन, नई दिल्ली नई दिल्ली दिल्ली:-110019 अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भाग : म.नं. 264, खसरा नंबर 11149/3218/8011150/80/2 11151/80/3, 11152/80/4,	रु.2360000/-, (रुपये तेईस लाख साठ हजार मात्र)	रु. 236000/-, (रुपये दो लाख	रु.4955783/-, (रुपये उनचास लाख पचपन हजार सात सौ तिरासी	31	ऋण कोड संख्या 19600043861, दिल्ली – सफदरजंग (शाखा), दलीप राम (कर्जदार), सरिता देवी (सह–कर्जदार 1)	दिनांक: 12-05-2021, रु. 1757306/-, (रुपये सत्रह लाख सत्तावन हजार तीन सौ छह मात्र)	अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त संपत्ति संख्या 102-बी, पहली सामने एल.एच.एस, बिना छ अधिकार के, खसरा नंबर 102 पालम, विश्वास पार्क उत्तम नग नई दिल्ली दिल्ली -1100
7	(सह-कर्जदार 1) ब्रह्म प्रकाश (सह-कर्जदार 2) ऋण कोड संख्या 13100002328,	हजार आठ सौ चौहत्तर मात्र) दिनांकः 30-04-2021,	11153/80/5, 11154 80/6,11155/ 80/7 वाका सिवाना मौजा राजेंदर पार्क गुड़गांव गुड़गांव हरियाणाः 122001 अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भाग : जिनकी सीमा है:- डब्ल्यूजेड-36, तीसरी मंजिल पीछे की ओर (पश्चिमी	रु.3270000/-, (रुपये बत्तीस	रु. 327000/-, (रुपये तीन	मात्र) रु.3824685/-, (रुपये अड़तीस लाख चौबीस हजार	32	ऋण कोड संख्या 09600001346, नई दिल्ली-पश्चिम (शाखा), अजय कुमार श्रीवास (कर्जदार), दिलीप सिंह श्रीवास (सह-कर्जदार 1)	दिनांक: 24-09-2021, रु. 1118340/-, (रुपये ग्यारह लाख अठारह हजार तीन सौ चालीस मात्र)	अग्रलिखित सम्पत्ति का स भाग : एलआईजी फ्लैट नंब तीसरी मंजिल सेक्टर जी 2, पॉ ब्लॉक नंबर एफ 5, नरेला, नई दिल्ली -110040
8	नोएडा 1 राजेंद्र प्लेस (शाखा), उर्वशी (कर्जदार), विकास साहनी (सह-कर्जदार 1) ऋण कोड संख्या	रु. 2908766/-, (रुपये उनतीस लाख आठ हजार सात सौ छियासठ मात्र) दिनांकः	भाग) बिना छत के अधिकार के, खसरा नंबर 1, गांव नंगलीजालिब, गली नंबर 11 कृष्णा पुरी, दिल्ली नई दिल्ली दिल्ली:- 110018 अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त	₹.2430000/-,	लाख सत्ताईस हजार मात्र) रु. 243000/-,	छह सौ पचासी मात्र) रु.3453778/-,	33		दिनांकः 19-12-2019, रु. 7652184/-, (रुपये छहत्तर लाख बावन हजार एक सौ	अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त सम्पत्ति नंबर-VI/675/1 ए आरएचएस बिना छत के अधि खसरा नंबर-319/35,36,37 नंबर-19 एवं 20 ब्लॉक-बीड रोड करोल बाग नई दिल्ली
9	0960001074, नई दिल्ली-पश्चिम (शाखा), अमित अग्रवाल (कर्जदार), मनीष अग्रवाल (सह-कर्जदार 1) ऋण कोड संख्या 19000001355,	24-09-2021, रु. 2757006/-, (रुपये सत्ताईस लाख सत्तावन हजार छः मात्र)	भाग : प्लॉट नंबर एम 32 छत के अधिकार के साथ तीसरी मंजिल, ब्लॉक एम तिहाड़, हरि नगर नई दिल्ली नई दिल्ली दिल्ली 110064 अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त	(रुपये चौबीस लाख तीस हजार मात्र) रु.3710000/-,	तैंतालीस हजार मात्र) रु. 371000/-,	(रुपये चौंतीस लाख तिरपन हजार सात सौ अठहत्तर मात्र) रु.4172900/-,	34	26600000672, दिल्ली राजौरी गार्डन (शाखा), राजू कुमार (कर्जदार),	चौरासी मात्र) दिनांकः 19-11-2019, रु. 2143984/-, (रुपये इक्कीस लाख	दिल्ली दिल्ली :- 11000 अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त प्लॉट नंबर एफ-66, प्रथम तल नंबर 7/19, गली नंबर-12, ओ उत्तम नगर, ग्राम मटियाला, उर
	राज नगर (शाखा), श्वेता कुमारी (कर्जदार), शंकर कुमार (सह–कर्जदार 1)	20-07-2021, रु. 3331040/-, (रुपये तैंतीस लाख इकतीस हजार चालीस मात्र)	भाग : - सम्पत्ति नंबर- आरजेड आई/67 अपर ग्राउंड फ्लोर खसरा नंबर 15/13 महावीर एन्क्लेव ग्राम मीरजापुर पालम नई दिल्ली नई दिल्ली दिल्ली:-110045		हजार मात्र)	(रुपये इकतालीस लाख बहत्तर हजार नौ सौ मात्र) रु.2966634/-,	35	बबीता देवी (सह कर्जदार 1) ऋण कोड संख्या 24900000390, दिल्ली जनकपुरी (शाखा),	तैंतालीस हजार नौ सौ चौरासी मात्र) दिनांकः 31-07-2019,	नई दिल्ली, दिल्ली:- 110 अग्रलिखित सम्पत्ति का स भाग : प्लॉट नंबर -3, डब्ल 461, एसएफ, खसरा नंबर
10	ऋण कोड संख्या 19800041463, दिल्ली – पीतमपुरा (शाखा), सतीश शर्मा (कर्जदार), संगीता शर्मा (सह–कर्जदार 1)	दिनांकः 22-02-2022, रु. 2504298/-, (रुपये पच्चीस लाख चार हजार दो सौ अद्वानवे मात्र)	अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भाग : प्लॉट नंबर 122 और 123 पहली मंजिल (सामने की ओर) खसरा नंबर 7/21/2 ओम विहार एक्सटेंशन उत्तम नगर नई दिल्ली नई दिल्ली दिल्ली -110059	लाख मात्र)	रु. 280000/-, (रुपये दो लाख अस्सी हजार मात्र)	रु.2966534/-, (रुपये उनतीस लाख छियासट हजार छह सौ चौंतीस मात्र)		मनोज दिहया (कर्जदार), संदीप कुमार (सह-कर्जदार 1) ऋण कोड संख्या	रु. 5169852/-, (रुपये इक्यावन लाख उनहत्तर हजार आठ सौ बावन मात्र)	'आठवीं सलीम पुर, खाता नंब ऋषि नगर, शकूर बस्ती रानी दिल्ली, नई दिल्ली- 110034 अग्रलिखित सम्पत्ति का स
11	ऋण कोड संख्या 19000001152, राज नगर (शाखा), अतुल कुमार झा (कर्जदार), नीता पाठक (सह-कर्जदार 1)	दिनांकः 12-05-2021, रु. 2491340/-, (रुपये चौबीस लाख इक्यानवे हजार तीन सौ	अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भाग : प्लॉट नंबरः 1626 दूसरी मंजिल (पीछे की ओर) गली नंबरः 14, गोविंदपुरी – कालकाजी हनुमान मंदिर के पास नई	रु.2110000/-, (रुपये इक्कीस लाख दस हजार मात्र)	रु. 211000/-, (रुपये दो लाख ग्यारह हजार मात्र)	रु.3325703/-, (रुपये तैंतीस लाख पच्चीस हजार सात सौ तीन मात्र)	100	25400000677, आजादपुर एनएसपी (शाखा), प्रितपाल सिंह (कर्जदार), हरजिंदर कौर (सह-कर्जदार 1)	12-05-2021, रु. 1932146/-, (रूपये उन्नीस लाख बत्तीस हजार एक सौ छियालीस मात्र)	भाग : आरजेड- 208-ए तथा आरजेड-20-बी, खसरा नंबर तीसरी मंजिल बिना छत के अधि गली नंबर 9, ग्राम ख्याला, विष दिल्ली नई दिल्ली दिल्ली:- 1
12	ऋण कोड संख्या 19600043321, दिल्ली – सफदरजंग (शाखा), विनोद प्रसाद	चालीस मात्र) दिनांकः 23-04-2019, रु. 5172217/-, (रुपये इक्यावन लाख	दिल्ली नई दिल्ली दिल्ली -110019 अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भाग : प्लॉट नंबर 92, प्लॉट, पॉकेट -3 सेक्टर -21 रोहिणी, दिल्ली नई दिल्ली दिल्ली -110085	करोड़ सत्तासी लाख अस्सी	रु. 1878000/-, (रुपये अट्ठारह लाख अटहत्तर हजार मात्र)	रु.8589168/-, (रुपये पचासी लाख नवासी हजार एक सौ अड़सठ मात्र)	37	ऋण कोड संख्या 19000001809, राज नगर (शाखा), अंकुश कुमार (कर्जदार), नीलमदेवी सिंह (सह-कर्जदार 1)	दिनांकः 12-05-2021, रु. 2077639/-, (रुपए बीस लाख सतहत्तर हजार छह सौ उनतालीस मात्र)	अग्रलिखित सम्पत्ति का सम् भाग : यूजीएफ -1 संपत्ति र सी -50 यूजीएफ फ्रंट साइड नंबर 15/4/1 महावीर एन्व दिल्ली नई दिल्ली दिल्ली -1
13	(कर्जदार), इंदु देवी (सह-कर्जदार 1) ऋण कोड संख्या 19700044374, गुड़गांव – सोहना रोड (शाखा), हेमांशु (कर्जदार),	बहत्तर हजार दो सौ सत्रह मात्र) दिनांकः 12-05-2021, रु. 1844835/-, (रुपये अठारह लाख	अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भाग : पी.नं. 311 और 312, एस.एफ., खसरा नं387, ग्राम.नवादा, ब्लॉक-आई, एक्सटेंशन मोहन गार्डन, उत्तम नगर, नई	हजार मात्र) रु. 1540000/-, (रुपये पन्द्रह लाख चालीस	रु. 154000/-, (रुपये एक लाख चौवन	रु.2444334/-, (रुपये चौबीस लाख चवालीस हजार तीन सौ चौंतीस मात्र)		ऋण कोड संख्या 11900001974, नोएडा (शाखा), ख्याली राम (कर्जदार), माधुरी सैनी (सह-कर्जदार 1)	दिनांकः 14-06-2021, रु. 2504358/-, (रुपये पच्चीस लाख चार हजार तीन सौ अट्ठावन मात्र)	अग्रलिखित सम्पत्ति का सः भाग : 25, गुरु नानक मार्केट बाग, ट्रांसपोर्ट सेंटर, दिल्ली नः नई दिल्ली दिल्ली-1100
14	करुणा (सह-कर्जदार 1) ऋण कोड संख्या 09600002144,	चवालीस हजार आठ सौ पैंतीस मात्र) दिनांकः 26-02-2022,	दिल्ली नई दिल्ली दिल्ली -110059 अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भाग : आरजेड-जी-465बी, टीएफ (छत के	हजार मात्र) रु. 1230000/-, (रुपये बारह	हजार मात्र) रु. 123000/-, (रुपये एक	रु.1596150/-, (रुपये पन्द्रह लाख		ऋण कोड संख्या 09600001839, नई दिल्ली-पश्चिम (शाखा), दीपक कुमार (कर्जदार), प्रीति (सह–कर्जदार 1)	दिनांकः 12-05-2021, रु. 1842418/-, (रु. अठारह लाख बयालीस हजार चार सौ	अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्र बी– 1514, प्रथम तल, शास्त्र दिल्ली नई दिल्ली दिल्ली –1
15	नई दिल्ली-पश्चिम (शाखा), सतीश मौर्य (कर्जदार), अनीता देवी (सह-कर्जदार 1) ऋण कोड संख्या	रु. 1352039/-, (रुपये तेरह लाख बावन हजार उनतालीस मात्र) दिनांकः	अधिकार के साथ पीछे की ओर) खसरा नं-50/1/2 और 2, ग्राम-पालम, गली नं- 17 राज नगर-2, पालम कॉलोनी नई दिल्ली उत्तर पश्चिम दिल्ली दिल्ली :- 110077 अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भाग :	लाख तीस हजार मात्र)	लाख तेईस हजार मात्र) रु. 171000/-,	छियानवे हजार एक सौ पचास मात्र) रु.1832161/-,	40	ऋण कोड संख्या 19600044051, दिल्ली – सफदरजंग (शाखा), वासुदेव शुक्ला (कर्जदार), डबलू देवी (सह–कर्जदार 1)	अठारह मात्र) दिनांकः 28-06-2021, रु. 2006401/-, (रुपए बीस लाख छह हजार चार सौ	अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त 1635 बी6,आरएचएस, दूसरी खाता संख्या–3/90, खसरा नं. नंबर–14 एवं 15 गोविंदपुरी क दक्षिण दिल्ली नई दिल्ल
16	197GUR34467, गुड़गांव - सोहना रोड (शाखा), आनंद सिंह नेगी (कर्जदार), भावना थपलियाल (सह-कर्जदार 1) ऋण कोड संख्या	28-07-2022, रु. 1615795/-, (रुपये सोलह लाख पन्द्रह हजार सात सौ पिचानबे मात्र) दिनांकः	एच/फ्लैट नंबर 377, फ्लोर नंबर 4, पॉकेट – बी-1, सेक्टर बक्करवाला, गांव, नई दिल्ली दिल्ली दिल्ली:-110026 अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त	(रुपये सत्रह लाख दस हजार मात्र) रु. 1880000/-,	(रुपये एक लाख इकहत्तर हजार मात्र) रु. 188000/-,	(रुपये अठारह लाख बत्तीस हजार एक सौ इकसठ मात्र) रु.2752087/-,	10 1	ऋण कोड संख्या 25500001807, नेताजी सुभाष प्लेस (शाखा), बलजोर सिंह (कर्जदार),	एक मात्र) दिनांकः 12-05-2021, रु. 1581945/-, (रुपये पन्द्रह लाख इक्यासी हजार नौ सौ	दिल्ली -110019 अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त सम्पत्ति संख्या टीए-102, दूसर बिना छत के अधिकार के, गर्ल खसरा नंबर 18/1 गांव-मटि
	19800041514, दिल्ली – पीतमपुरा (शाखा), सोनी अरामचेरी जॉनी (कर्जदार), जोस के जिलु (सह–कर्जदार 1)	08-10-2021, रु. 2220466/-, (रुपये बाईस लाख बीस हजार चार सौ छियासठ मात्र)	भाग : प्लॉट नंबर-सी-30-ए, ऊपरी ग्राउंड फ्लोर का पिछला भाग बिना छत के अधिकार के, खसरा नंबर 947, गुलाब बाग, गांव नवादा, उत्तम नगर, दिल्ली, नई दिल्ली, दिल्ली:-110059	(रुपये अट्ठारह	रु. 188000/-, (रुपये एक लाख अट्ठासी हजार मात्र)	रु.2/5208//-, (रुपये सत्ताईस लाख बावन हजार सत्तासी मात्र)	42	13100001196 और 13100001211,	पैंतालीस मात्र) दिनांकः 12-05-2021, रु. 1065982/-,	टीए- ब्लैक, ओमविहार उत्तम दिल्ली नई दिल्ली दिल्ली - 1 अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त फ्लैट नंबर 698, चौथी मंजिल एलआईजी फ्लैट ब्लॉक-जीए
17	ऋण कोड संख्या 266000001509, दिल्ली राजौरी गार्डन (शाखा), गुरमित (कर्जदार), जमोत्री (सह–कर्जदार 1)	दिनांकः 23-03-2022, रु. 1304646/-, (रुपए तेरह लाख चार हजार छह सौ छियालीस मात्र)	अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भाग : सम्पत्ति नंबर 87 और 88, छत के अधिकार के साथ तीसरी मंजिल रियर यूनिट, खसरा नं. 109/15/1, गली नंबर 19 भरतविहार राजपुरी उत्तमनगर नई दिल्ली नई दिल्ली दिल्ली:-110059	रु. 1500000/-, (रुपये पन्द्रह लाख मात्र)	रु. 150000/-, (रुपये एक लाख पचास हजार मात्र)	रु.1526161/-, (रुपये पन्द्रह लाख छब्बीस हजार एक सौ इकसठ मात्र)		नोएडा 1 राजेंद्र प्लेस (शाखा), वैभव वशिष्ठ (कर्जदार), अभिनव वशिष्ठ (सह कर्जदार 1)	(रुपये दस लाख पैंसठ हजार नौ सौ बयासी मात्र) और दिनांक: 29-05-2021, रु. 681613/-, (रुपये छ: लाख इक्यासी हजार छह सौ तेरह मात्र)	पॉकेट−1 सेक्टर−29, रोहिणी f दिल्ली दिल्लीः− 11008
18	ऋण कोड संख्या 25500001104, नेताजी सुभाष प्लेस (शाखा), लेखराज (कर्जदार), आशा रानी (सह-कर्जदार 1)	दिनांकः 16-06-2021, रु. 1160221/-, (रुपये ग्यारह लाख साठ हजार दो सौ इक्कीस मात्र)	अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भाग : प्लॉट नंबर 84-ए, छत के अधिकार के साथ तीसरी मंजिल का पिछला भाग, ब्लॉक-ए गली नंबर 19 खसरा नंबर 109/14 गांव पालम, उत्तम नगर, दिल्ली नई दिल्ली दिल्ली -110045	रु. 1420000/-, (रुपये चौदह लाख बीस हजार मात्र)	(रुपये एक	रु.1527935/-, (रुपये पन्द्रह लाख सत्ताईस हजार नौ सौ पैंतीस मात्र)		19600043014 एवं 19600044416, दिल्ली – सफदरजंग (शाखा), उमेश यादव (कर्जदार),	दिनांकः 30-04-2021, रु. 2776201/-, (रुपये सत्ताईस लाख छिहत्तर हजार दो सौ	अग्रलिखित सम्पत्ति का स भाग : म.नं. 1/1857ए, प्लॉट तीसरी मंजिल, छत के अधिका हिस्सा, पुराना नंबर 558 ख 183/340, 1156/34, 1164
19	ऋण कोड संख्या	दिनांकः	नइ ।दल्ला ।दल्ला - । 10045 अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भाग :	₹.2550000/	रु. 255000/-,	₹.3082721/-,		कमलेश कुमार यादव (सह कर्जदार 1)	एक मात्र) और दिनांकः 29-05-2021, क. 506942/-	और 1169/351, शाहदरा नई दिल्ली –110032

दिल्ली नई दिल्ली दिल्ली -110045 अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भाग : 25, गुरु नानक मार्केट, पंजाबी बाग, ट्रांसपोर्ट सेंटर, दिल्ली नई दिल्ली नई दिल्ली दिल्ली-110034 अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भाग : बी- 1514, प्रथम तल, शास्त्री नगर, दिल्ली नई दिल्ली दिल्ली -110052 अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भाग : 1635 बी6, आरएचएस, दूसरी मंजिल, खाता संख्या-3/90, खसरा नं. 73, गली नंबर-14 एवं 15 गोविंदपुरी कालकाजी दक्षिण दिल्ली नई दिल्ली दिल्ली -110019 अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भाग : सम्पत्ति संख्या टीए-102, दूसरा मंजिल बिना छत के अधिकार के, गली नंबर 2, खसरा नंबर 18/1 गांव-मटियाला, टीए- ब्लैक, ओमविहार उत्तम नगर नई दिल्ली नई दिल्ली दिल्ली - 110059 अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भाग : फ्लैट नंबर 698, चौथी मंजिल, डीडीए एलआईजी फ्लैट ब्लॉक-जीएच-1, पॉकेट-1 सेक्टर-29, रोहिणी दिल्ली नई दिल्ली दिल्ली:- 110085 अगुलिखित सम्पत्ति का समस्त भाग : म.नं. 1/1857ए, प्लॉट नंबर 2, तीसरी मंजिल, छत के अधिकार का 1/4 हिस्सा, पुराना नंबर 558 खसरा नं. 183/340, 1156/34, 1164/350 और 1169/351, शाहदरा नई दिल्ली 29-05-2021, (सह कर्जदार 1) दिल्ली -110032 रु.3082721/−, ₹. 506942/-, खुशी यादव (सह-कर्जदार 2) (रुपये तीस लाख (रुपये पांच लाख छः बयासी हजार सात हजार नौ सौ बयालीस सौ इक्कीस मात्र) मात्र) अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भाग : ऋण कोड संख्या दिनांकः फ्लैट नंबर 765. ग्राउंड फ्लोर पॉकेट डी. 190000001298 | 20-07-2021, दिलशाद गार्डन दिल्ली दिल्ली 13000000125, रु. 851275/−, रु.1538582/− नई दिल्ली दिल्ली-110095 राज नगर (शाखा), (रुपये आठ लाख (रुपये पन्द्रह लाख शशि भषण (कर्जदार) इक्यावन हजार दो सौ अड़तीस हजार पांच सोनिया शर्मा पचहत्तर मात्र) एवं सौ बयासी मात्र) (सह-कर्जदार 1) दिनांकः 20-02-2020, रु. 2742961/−, (रुपये सत्ताईस लाख बयालीस हजार नौ सौ रु.1321362/− इकसठ मात्र) (रुपये तेरह लाख इक्कीस हजार तीन दिनांकः ऋण कोड संख्या अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भाग : सौ बासठ मात्र) 27-07-2021, मकान नंबर ए 33 ग्राउंड फ्लोर ब्लॉक ए 28200000023 एवं ₹. 11484864/-साउथ एक्सटेंशन पार्ट 1 दिल्ली नई 19700044335, (रुपये एक करोड़ दिल्ली दिल्ली -110017। लाजपत नगर (शाखा), चौदह लाख चौरासी सुशील कुमार (कर्जदार), हजार आठ सौ चौंसठ पिंकी बैसोया (सह-कर्जदार 1) ₹.1649410/-मात्र) और दिनांकः दिलावर सिंह बैसोया (रुपये सोलह लाख 27-07- 2021, (सह-कर्जदार 2) उनतालीस हजार रु. 3632970/−, बिसंबरी देवी (गारंटर 1) चार सौ दस मात्र) (रुपये छत्तीस लाख बत्तीस हजार नौ सौ सत्तर मात्र)

लाख उनसठ हजार नौ सौ अट्ठासी ई-नीलामी की तिथि : 24.08.2023, 11.00 बजे पूर्वा. से 2.00 बजे अप. (5 मिनट प्रत्येक के असीमित विस्तार सिंहत), संविदा जमा करने की अन्तिम तिथि : 23.08.2023 को 4.00 बजे अप. से पूर्व बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए www.piramalfinance.com/e-Auction.htm' में प्रावधानित लिंक देखें या हमें piramal.auction@piramal.com सौ चौवालीस मात्र) । पर ई-मेल करें। कर्जदार/जमानती/बंधककर्ता को सरफैसी अधिनियम के तहत 30 दिवसीय सांविधिक सूचना उपरोक्त उल्लिखित कर्जदार/गारंटर को एतद्वारा धारा 13(2) नोटिस में उल्लिखित राशि का भूगतान अर्जित ब्याज के साथ पूर्ण रूप से नीलामी की तिथि से पहले तक करने वे लिए कहा जाता है, जिसमें विफल होने पर संपत्ति की नीलामी∕बिक्री की जाएगी और शेष राशि यदि कोई होगी कर्जदार∕गारंटर से ब्याज और लागत के साथ वसुल किया जाएगा

16-06-2020,

रु. 2381922/-,

(रुपये तेईस लाख

इक्यासी हजार नौ सौ

बाईस मात्र)

दिनांकः

24-05-2021,

रु. 2166026/-,

(रुपये इक्कीस लाख

छियासठ हजार

छब्बीस मात्र)

दिनांकः

12-05-2021,

रु. 1820003/−,

(रुपये अठारह लाख

बीस हजार तीन मात्र)

12-05-2021,

रु. 1319511/−,

(रूपये तेरह लाख

उन्नीस हजार पांच सौ

ग्यारह मात्र)

दिनांकः

28-06-2021,

रु. 1202830/−,

(रुपये बारह लाख दो

हजार आठ सौ तीस

मात्र)

12-05-2021,

रु. 1388798/-,

(रूपये तेरह लाख

अट्टासी हजार सात सौ

अट्ठानबे मात्र)

दिनांकः

12-05-2021,

रु. 1820333/−,

(रुपये अठारह लाख

बीस हजार तीन सौ

तैंतीस मात्र)

दिनांकः

12-05-2021,

रु. 1757306/-

(रुपये सत्रह लाख

सत्तावन हजार तीन सौ

छह मात्र)

24-09-2021,

₹. 1118340/-,

(रुपये ग्यारह लाख

अठारह हजार तीन सौ

चालीस मात्र)

19-12-2019,

₹. 7652184/-

(रुपये छहत्तर लाख

बावन हजार एक सौ

चौरासी मात्र)

दिनांकः

19-11-2019,

रु. 2143984/−,

(रुपये इक्कीस लाख

तैंतालीस हजार नौ सौ

चौरासी मात्र)

दिनांकः

31-07-2019,

रु. 5169852/-,

(रुपये इक्यावन लाख

उनहत्तर हजार आठ सौ

बावन मात्र)

12-05-2021,

रु. 1932146/-,

(रूपये उन्नीस लाख

बत्तीस हजार एक सौ

छियालीस मात्र)

12-05-2021,

रु. 2077639/-,

(रुपए बीस लाख

सतहत्तर हजार छह सौ

उनतालीस मात्र)

दिनांकः

14-06-2021,

रु. 2504358/-,

(रुपये पच्चीस लाख

चार हजार तीन सौ

अट्टावन मात्र)

दिनांकः

12-05-2021,

रु. 1842418/−,

(रु. अठारह लाख

बयालीस हजार चार सौ

अठारह मात्र)

दिनांकः

28-06-2021,

₹. 2006401/-,

(रुपए बीस लाख

छह हजार चार सौ

एक मात्र)

दिनांकः

12-05-2021,

रु. 1581945/-,

(रुपये पन्द्रह लाख

इक्यासी हजार नौ सौ

पैंतालीस मात्र)

दिनांकः

12-05-2021,

रु. 1065982/-,

(रुपये दस लाख पैंसठ

हजार नौ सौ बयासी

मात्र) और

दिनांकः 29-05-2021

रु. 681613/-, (रुपये

छः लाख इक्यासी हजा

छह सौ तेरह मात्र)

दिनांक:

30-04-2021,

रु. 2776201/-,

(रुपये सत्ताईस लाख

छिहत्तर हजार दो सौ

एक मात्र) और दिनांकः

29-05-2021,

₹. 506942/-,

(रुपये पांच लाख छः

हजार नौ सौ बयालीस

मात्र)

दिनांकः

20-07-2021,

19600043023,

दिल्ली - सफदरजंग (शाखा)

अनीश के मैथ्यू (कर्जदार), रोमी

अनीश आर (सह-कर्जदार 1)

ऋण कोड संख्या

26600001645,

दिल्ली राजौरी गार्डन (शाखा)

निशा गृप्ता (कर्जदार),

राज पुरूषोत्तम पोथगंती

(सह–कर्जदार 1)

ऋण कोड संख्या

19800041649,

दिल्ली- पीतमपुरा (शाखा)

मनोज कुमार मलिक (कर्जदार)

अमिता मलिक (सह-कर्जदार 1)

ऋण कोड संख्या

13000001589, गुड़गांव

(शाखा), मंजू (कर्जदार),

राकेश कुमार (सह-कर्जदार 1)

ऋण कोड संख्या

24900000828,

दिल्ली जनकपुरी (शाखा),

एंसी विलियम (कर्जदार).

तापस मैत्रा (सह कर्जदार 1)

तापस मैत्रा (सह कर्जदार 2)

ऋण कोड संख्या

273000000366,

द्वारका (शाखा), महेश कुमार

(कर्जदार), ज्योति वर्मा

(सह-कर्जदार 1)

ऋण कोड संख्या

13100002245,

नोएडा 1 राजेंद्र प्लेस (शाखा),

नईम अहमद (कर्जदार), अंजुम

सलमानी (सह-कर्जदार 1)

ऋण कोड संख्या

19600043861,

दिल्ली - सफदरजंग (शाखा)

दलीप राम (कर्जदार),

सरिता देवी (सह-कर्जदार 1)

ऋण कोड संख्या

09600001346

नई दिल्ली-पश्चिम (शाखा)

अजय कुमार श्रीवास (कर्जदार)

दिलीप सिंह श्रीवास

(सह-कर्जदार 1)

ऋण कोड संख्या

09600001595,

नई दिल्ली-पश्चिम (शाखा).

रवीन्द्र गर्ग (कर्जदार),

मिनाक्षी गर्ग (सह-कर्जदार 1)

ऋण कोड संख्या

266000000672,

दिल्ली राजौरी गार्डन (शाखा)

राजू कुमार (कर्जदार),

बबीता देवी (सह कर्जदार 1)

ऋण कोड संख्या

249000000390,

दिल्ली जनकपुरी (शाखा)

मनोज दहिया (कर्जदार),

संदीप कुमार (सह-कर्जदार 1)

ऋण कोड संख्या

254000000677,

आजादपुर एनएसपी (शाखा)

प्रितपाल सिंह (कर्जदार),

हरजिंदर कौर (सह-कर्जदार 1)

ऋण कोड संख्या

19000001809, राज नगर

(शाखा), अंकुश कुमार

(कर्जदार), नीलमदेवी सिंह

(सह-कर्जदार 1)

ऋण कोड संख्या

11900001974, नोएडा (शाखा)

ख्याली राम (कर्जदार),

माधुरी सैनी (सह-कर्जदार 1)

ऋण कोड संख्या

09600001839,

नई दिल्ली-पश्चिम (शाखा)

दीपक कुमार (कर्जदार),

प्रीति (सह-कर्जदार 1)

ऋण कोड संख्या

19600044051,

दिल्ली - सफदरजंग (शाखा)

वासुदेव शुक्ला (कर्जदार),

डबलू देवी (सह-कर्जदार 1)

ऋण कोड संख्या

25500001807,

नेताजी सुभाष प्लेस (शाखा)

बलजोर सिंह (कर्जदार),

अमित कुमार (सह ऋणकर्ता

।)कमलेश देवी (सह ऋणकर्ता 2)

ऋण कोड संख्या

13100001196

और 13100001211,

नोएडा 1 राजेंद्र प्लेस

(शाखा), वैभव वशिष्ठ

(कर्जदार), अभिनव वशिष्ठ

(सह कर्जदार 1)

ऋण कोड संख्या

19600043014 एवं

19600044416.

दिल्ली - सफदरजंग (शाखा),

उमेश यादव (कर्जदार),

कमलेश कुमार यादव

(सह कर्जदार 1)

खुशी यादव (सह-कर्जदार 2)

ऋण कोड संख्या

190000001298 |

13000000125,

राज नगर (शाखा),

शशि भूषण (कर्जदार),

सोनिया शर्मा

(सह-कर्जदार 1)

26

पैंतालीस हजार सा

सौ पिचासी मात्र)

रु.1910360/−

(रुपये उन्नीस लाख

दस हजार तीन सौ

साठ मात्र)

₹.2638267/-

(रुपये छब्बीस लाख

अड़तीस हजार दो

सौ सड़सठ मात्र)

रु.2785459/-

(रुपये सत्ताईस

लाख पचासी हजार

चार सौ उनसठ

मात्र)

रु.1796029/-

(रुपये सत्रह लाख

छियानवे हजार

उनतीस मात्र)

रु.4955783/−

(रुपये उनचास

लाख पचपन हजार

सात सौ तिरासी

मात्र)

₹.3824685/-

(रुपये अड़तीस

लाख चौबीस हजा

छह सौ पचासी

₹.3453778/-

रुपये चौंतीस लाख

तिरपन हजार सात

रु.4172900/−

(रुपये इकतालीस

लाख बहत्तर हजार

नौ सौ मात्र)

रु.2966634/-

रुपये उनतीस लाख

छियासठ हजार छह

सौ चौंतीस मात्र)

रु.3325703/−

(रुपये तैंतीस लाख

पच्चीस हजार सात

सौ तीन मात्र)

रु.8589168/-

(रुपये पचासी लाख

नवासी हजार एक

सौ अड़सट मात्र)

₹.2444334/-,

रुपये चौबीस लाख

चवालीस हजार तीन

सौ चौंतीस मात्र)

रु.1596150/-

(रुपये पन्द्रह लाख

सौ पचास मात्र)

₹.1832161/-

रुपये अठारह लाख

42

सौ अठहत्तर मात्र) 34

32

दस हजार मात्र)

रु. 204000/-

(रुपये दो लाख

चार हजार मात्र)

रु. 133000/-

(रुपये एक

लाख तैंतीस

हजार मात्र)

रु. 236000/-

(रुपये दो लाख

छत्तीस हजार

रु. 327000/-

(रुपये तीन

लाख सत्ताईस

हजार मात्र)

रु. 243000/-

(रुपये दो लाख

तैंतालीस हजार

मात्र)

रु. 371000/-

(रुपये तीन

लाख इकहत्तर

हजार मात्र)

रु. 280000/-

(रुपये दो लाख

अस्सी हजार

मात्र)

रु. 211000/-

(रुपये दो लाख

ग्यारह हजार

मात्र)

रु. 1878000/-

(रुपये अट्ठारह

लाख अठहत्तर

हजार मात्र)

रु. 154000/-

(रुपये एक

लाख चौवन

हजार मात्र)

रु. 123000/-

भाग : - फ्लैट नंबर 475 पहली और

दुसरी मंजिल, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी

सेक्टर 51 गुड़गांव गुड़गांव

हरियाणाः- 122002

भाग : पी.नं. सी-53 और 54, पहली

मंजिल सामने की ओर खसरा नं.

10/25, ग्राम मटियाला, ब्लॉक-सी,

सैनिक नगर, उत्तम नगर नई दिल्ली

नई दिल्ली :- 110059

भाग : प्लॉट नंबर आरजेड- 4 ए, छत

के अधिकार के साथ तीसरी मंजिल,

खसरा नंबर 20/22, टी-ब्लॉक गांव

मटियाला, जैन कॉलोनी भाग III टी

ब्लॉक एक्सटेंशन, उत्तम नगर नई दिल्ली

दिल्ली: - 110059

अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त

भाग : फ्लैट नंबर 427 ग्राउंड फ्लोर

ब्लॉक बी जनता फ्लैट पॉकेट 9 सेक्टर

03 रोहिणी नई दिल्ली नई दिल्ली

भाग : जिनकी सीमा है:-प्लॉट नंबर-

ए-66, तीसरी मंजिल, पीछे की ओर छत

के अधिकार के साथ, ब्लाक-ए, गली

नंबर-17, खसरा नंबर 109/8, ग्राम

पालम राजा पुरी उत्तम नगर , दिल्ली

नई दिल्ली दिल्ली:-110059

अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भाग :

डब्ल्यूजेड- ४९३-ए/१, प्रथम तल

(एलएचएस) गली नंबर 16, खसरा

नंबर 94/10/2 साध नगर,

पालम कॉलोनी दिल्ली नई दिल्ली

दिल्ली -110045

अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भाग :

सम्पत्ति नंबर-2-ए, पहली मंजिल बिना

छत के अधिकार के, ब्लॉक-ए खसरा

नं.-105/4/2, गली नंबर-04, ग्राम

पालम विश्वास पार्क एक्सटेंशन,

उत्तम नगर नयी दिल्ली नई दिल्ली

दिल्ली :- 110059

अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भाग :

संपत्ति संख्या 102-बी, पहली मंजिल

सामने एल.एच.एस, बिना छत के

अधिकार के, खसरा नंबर 102/21 गांव

पालम, विश्वास पार्क उत्तम नगर, दिल्ली

नई दिल्ली दिल्ली -110058

अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त

भाग : एलआईजी फ्लैट नंबर 16,

तीसरी मंजिल सेक्टर जी 2, पॉकेट 02,

ब्लॉक नंबर एफ 5, नरेला, दिल्ली

नई दिल्ली -110040

अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भाग :

सम्पत्ति नंबर-VI/675/1 एसएफ

खसरा नंबर-319/35,36,37 गली

नंबर-19 एवं 20 ब्लॉक-बीडी जोशी

रोड करोल बाग नई दिल्ली नई

दिल्ली दिल्ली :- 110005

अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भाग :

प्लॉट नंबर एफ-66, प्रथम तल, खसरा

नंबर 7/19, गली नंबर-12, ओम विहार,

उत्तम नगर, ग्राम मटियाला, उत्तम नगर,

नई दिल्ली, दिल्ली:- 110059

अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त

भाग : प्लॉट नंबर -3, डब्ल्यूजेड -

461, एसएफ, खसरा नंबर -368

'आठवीं सलीम पुर, खाता नंबर -44,

ऋषि नगर, शकूर बस्ती रानी बाग,

दिल्ली, नई दिल्ली- 110034 दिल्ली

अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त

भाग ः आरजेड- २०८-ए तथा पराना नं.

आरजेड-20-बी, खसरा नंबर 12/18

तीसरी मंजिल बिना छत के अधिकार के,

गली नंबर 9, ग्राम ख्याला, विष्णु गार्डन

दिल्ली नई दिल्ली दिल्ली:- 110018

अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त

भाग : यूजीएफ -1 संपत्ति संख्या-

सी -50 यूजीएफ फ्रंट साइड खसरा

नंबर 15/4/1 महावीर एन्क्लेव

दिल्ली नई दिल्ली दिल्ली -110045

अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त

भाग : 25, गुरु नानक मार्केट, पंजाबी

बाग, ट्रांसपोर्ट सेंटर, दिल्ली नई दिल्ली

नई दिल्ली दिल्ली-110034

अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भाग

बी- 1514, प्रथम तल, शास्त्री नगर,

दिल्ली नई दिल्ली दिल्ली -110052

अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भाग :

1635 बी६, आरएचएस, दूसरी मंजिल,

खाता संख्या-3/90, खसरा नं. 73, गली

नंबर-14 एवं 15 गोविंदपुरी कालकाजी

दक्षिण दिल्ली नई दिल्ली

दिल्ली -110019

अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भागः

सम्पत्ति संख्या टीए-102, दूसरा मंजिल

बिना छत के अधिकार के. गली नंबर 2.

खसरा नंबर 18/1 गांव-मटियाला,

टीए- ब्लैक, ओमविहार उत्तम नगर नई

दिल्ली नई दिल्ली दिल्ली - 110059

अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भागः

फ्लैट नंबर 698, चौथी मंजिल, डीडीए

एलआईजी फ्लैट ब्लॉक-जीएच-1,

पॉकेट-1 सेक्टर-29, रोहिणी दिल्ली नई

दिल्ली दिल्ली:- 110085

अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त

भाग : म.नं. 1/1857ए, प्लॉट नंबर 2,

तीसरी मंजिल, छत के अधिकार का 1/4

हिस्सा, पुराना नंबर 558 खसरा नं.

183/340, 1156/34, 1164/350

और 1169/351, शाहदरा नई दिल्ली

दिल्ली -110032

अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भागः

फ्लैट नंबर 765, ग्राउंड फ्लोर पॉकेट डी,

आरएचएस बिना छत के अधिकार

(रुपये बत्तीस

लाख चालीस

हजार मात्र)

रु. 1720000/−,

(रुपये सत्रह

लाख बीस

हजार मात्र)

रु. 1930000/−

(रुपये उन्नीस

लाख तीस हजार

मात्र)

रु.1570000/−,

(रुपये पन्द्रह

लाख सत्तर

हजार मात्र)

চ.1540000/−

(रुपये पन्द्रह

लाख चालीस

हजार मात्र)

रु.1500000/−

(रुपये पन्द्रह

लाख मात्र)

रु.1560000/−,

(रुपये पन्द्रह

लाख साठ

हजार मात्र)

रु.1820000/-

(रुपये अठारह

लाख बीस

हजार मात्र)

रु.1190000/−

(रुपये ग्यारह

लाख नब्बे

हजार मात्र)

रु.8010000/-

(रुपये अस्सी

लाख दस

हजार मात्र)

रु.1580000/−,

(रुपये पन्द्रह

लाख अस्सी

हजार मात्र)

रु.3340000/−

(रुपये तैंतीस

लाख चालीस

हजार मात्र)

5.1840000/-

(रुपये अठारह

लाख चालीस

हजार मात्र)

रु.1770000/−

(रुपये सत्रह

लाख सत्तर

हजार मात्र)

रु.3740000/−

(रुपये सैंतीस

लाख चालीस

हजार मात्र)

रु.1650000/-

(रुपये सोलह

लाख पचास

हजार मात्र)

रु.1810000/−,

(रुपये अठारह

लाख दस हजार

मात्र)

रु.1720000/-

(रुपये सत्रह

लाख बीस

हजार मात्र)

रु.228000/-

(रुपये बाईस

लाख अस्सी

हजार मात्र)

(रुपये चालीस

लाख दस हजार

रु. 4180000/-

(रुपये

इकतालीस

लाख अस्सी

हजार मात्र)

(रुपये छत्तीस लाख

इकसठ हजार आठ

सौ चौंतीस मात्र)

रु.2264797/−

(रुपये बाईस लाख

चौसठ हजार सात

सौ सत्तानबे मात्र)

रु.2407193/−,

(रुपये चौबीस लार

सात हजार एक सौ

तिरानबे मात्र)

रु.1122533/−

(रुपये ग्यारह लाख

बाईस हजार पांच र

तैंतीस मात्र)

रु.1534405/-

(रुपये पन्द्रह लाख

चौंतीस हजार चार

सौ पांच मात्र)

(रुपये अठारह लार

इक्यावन हजार छ

मात्र)

रु.2385657/-

(रुपये तेईस लाख

पिचासी हजार छह

सौ सत्तावन मात्र)

रु.2307385/-

(रुपये तेईस लाख

सात हजार तीन सं

पचासी मात्र)

रु.1404634/-

(रुपये चौदह लाख

चार हजार छह सौ

चौंतीस मात्र)

रु.10005232/-

(रुपये एक करोड़

पांच हजार दो सौ

बत्तीस मात्र)

रु.3327024/-

(रुपये तैंतीस लाख

सत्ताईस हजार

चौबीस मात्र)

रु.8449956/-

(रुपये चौरासी लार

उनचास हजार नौ सं

छप्पन मात्र)

रु.2623077/-

(रुपये छब्बीस लाख

तेईस हजार सतहत्तर

मात्र)

रु.2540298/-

(रुपये पच्चीस लार

चालीस हजार दो सं

अट्टानबे मात्र)

रु.3217340/-

(रुपये बत्तीस लाख

सत्रह हजार तीन सैं

चालीस मात्र)

रु.2355361/-

(रुपये तेईस लाख

पचपन हजार तीन

सौ इकसठ मात्र)

रु.2638851/-

(रुपये छब्बीस लाख

अड़तीस हजार आट

सौ इक्यावन मात्र)

रु.2085579/-

(रुपये बीस लाख

पचासी हजार पांच

सौ उन्यासी मात्र)

रु.1435739/-

(रुपये चौदह लाख

पैंतीस हजार सात सं

उनतालीस मात्र)

तथा

रु.978602/-

(रुपये नौ लाख

अठहत्तर हजार छह

सौ दो मात्र)

₹.3463472/-,

(रुपये चौंतीस लाख

तिरसठ हजार चार

सौ बहत्तर मात्र)

रु. 608969/-

(रुपये छह लाख

आठ हजार नौ सौ

उनहत्तर मात्र)

रु.1179884/−,

(रुपये ग्यारह लाख

उन्यासी हजार आट

सौ चौरासी मात्र)

तथा रु. 3543300/

(रुपये पैंतीस लाख

तैंतालीस हजार तीन

सौ मात्र)

रु.15227192/−

(रुपये एक करोड़

बावन लाख सत्ताईस

हजार एक सौ बानबे

मात्र)

रु. 4759988/-

(रुपये सैंतालीस

लाख उनसठ हजार

(रुपये तीन

लाख चौबीस

हजार मात्र)

रु. 172000/-

(रुपये एक

लाख बहत्तर

हजार मात्र)

रु. 193000/−,

(रुपये एक

लाख तिरानवे

हजार मात्र)

रु. 157000/-

(रुपये एक

लाख सत्तावन

हजार मात्र)

চ. 154000/−

(रुपये एक

लाख चौवन

हजार मात्र)

(रुपये एक

लाख पचास

हजार मात्र)

रु. 156000/-

(रुपये एक

लाख छप्पन

हजार मात्र)

रु. 182000/-

(रुपये एक

लाख बयासी

हजार मात्र)

रु. 119000/-

(रुपये एक

लाख उन्नीस

हजार मात्र)

रु. 801000/-

(रुपये आठ

लाख एक हजार

मात्र)

रु. 158000/-

(रुपये एक

लाख अट्टावन

हजार मात्र)

रु. 334000/-

(रुपये तीन

लाख चौंतीस

हजार मात्र)

रु. 184000/-

(रुपये एक

लाख चौरासी

हजार मात्र)

रु. 177000/-

(रुपये एक

लाख सतहत्तर

हजार मात्र)

रु. 374000/-

(तीन लाख

चौहत्तर हजार

मात्र)

रु. 165000/-

(रुपये एक

लाख पैंसठ

हजार मात्र)

रु. 181000/-

(रुपये एक

लाख इक्यासी

हजार मात्र)

रु. 172000/-

(रुपये एक

लाख बहत्तर

हजार मात्र)

रु. 228000/-

(रुपये दो लाख

अट्टाईस हजार

मात्र)

रु. 401000/−,

लाख एक हजार

मात्र)

रु. 418000/-

(रुपये चार

लाख अठारह

हजार मात्र)

रु. 1652000/,

(रुपये चार

पंजीकृत कार्यालयः जय स्प्रिंग्स रोड, औद्योगिक क्षेत्र, ूयमुना नगर— 135001, हरियाणा ्रेस नार— 135001, हरियाणा टेलीफोन नं: 01732—251810/11/14 गर्यालयः युनिट नं. 408, चौथी मंजिल, टावर—बी, वाटिका संक्टर—27डी, एनएच2, फरीदाबाद 121003/ हरियाणाः \ एनएच2, फरीदाबाद 121003(हरियाणा दूरमाष. 0129—4006885; investor.relations@jaispring.com वेबसाइटः www.jaispring.com

पूचन। एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल ने 29 मई 2023 को आयोजित अपनी बैठक में वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए प्रत्येक 1 रुपये के नाममात्र मुल्य के प्रति इक्विटी शेयर रू.1.10 (एक रूपये दस पैसे) का अंतरिम लाभांश आगामी 57वीं वार्षिक आम बैटक में सदस्यों के अनुमोदन के अधीन घोषित किया है और लाभांश प्राप्त करने के लिए पात्र शेयरधारकों को निर्धारित करने के लिए रिकॉर्ड तिथि के रूप में शुक्रवार, 21 जुलाई 2023 को

वित्त अधिनियम, 2020 के प्रावधानों के साथ पठित और द्वारा संशोधित आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी को अपने शेयरधारकों को भूगतान किए जाने वाले लाभांश पर निर्धारित दरों पर करों को रोकना होगा। स्थगित किए कर दर शेयरधारक की आवासीय स्थिति और उनके द्वारा जमा किए गए एवं कंपनी द्वारा स्वीकार किए गए दस्तावेजों के आधार पर अलग-अलग होगी। तदनुसार, निर्धारित दरों पर स्रोत पर कर रोक कर अंतरिम लाभांश का इच्छ्क सदस्य विदहोलिंडग टैक्स (डीटीएए/आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार) की लाभकारी

या रियायती दर का दावा करना चाहते हैं, उन्हें ऐसी लाभकारी या रियायती दरों का लाभ उठाने के लिए कंपनी की वेबसाइट यानी https://www.jaispring.com/assets/investorrelation/corporate governance/tax-exemption-form-for-TDS.pdf पर निर्धारित दस्तावेज जमा करने होंगे। दस्तावेज़, जैसा लागू हो, कंपनी या स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ("रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट")को उनके ई-मेल-आईडी यानी investor.relations@jaispring.com vkSj@;k parveen@skylinerta.com पर कट-ऑफ तारीख तक या से पहले यानी 25 जुलाई 2023 से पहले कंपनी को उचित विदहोलिंडग टैक्स दरों का निर्धारण करने में सक्षम बनाने के लिए उपलब्ध कराए जाने चाहिए। अंतरिम लाभांश के भुगतान के लिए 25 जुलाई 2023 के बाद प्राप्त कर निर्धारण / कटौती पर किसी भी संचार पर विचार नहीं किया जाएगा। विदहोलिंडग टैक्स की उचित दरों का निर्धारण करने के लिए कंपनी को दस्तावेजों का मिलान करने में सक्षम बनाने के लिए जल्द से जल्द दस्तावेज उपलब्ध कराने की सलाह दी जाती है। लाभकारी या रियायती कर दरों का आवेदन सदस्यों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की पूर्णता और कंपनी की संतुष्टि के लिए समीक्षा पर निर्भर करेगा। उक्त पत्र सभी सदस्यों को उनके पंजीकृत ईमेल आईडी पर भेजा जा रहा है और उसकी प्रति

कंपनी की वेबसाइट www.jaispring.com पर भी उपलब्ध है। कृते जामना ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड

स्थानः नई दिल्ली दिनाकः 18 जुलाई 2023

[देखें विनियमन-15(1)(ए)] 16(3

कंपनी सचिव और प्रमुख–कानूनी

ऋण वसुली अधिकरण चंडीगढ़ (डीआरटी 2) ाला तल, एससीओ-33-34-45, सेक्टर-17ए, चंडीगढ़ (3रे एवं 4थे तल पर भी अतिरिक्त स्थान आबंटित) मामला सं. ओए/1716/2021

ऋण वसूली अधिकरण (प्रक्रिया) नियमावली, 1993 के नियम 5 के उप-नियम (2ए) के साथ पठित अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (4) के अंतर्गत समन्स यनियन बैंक ऑफ इंडिया बनाम मै. असलम टायर क.

1. मै. असलम टायर क. डी/डब्ल्य्/एस/ओ-उमर मोहम्मद, एच.नं. 181, वार्ड नं., टेलीफोन एक्सचैंज के

सामने, दिल्ली-अलवर रोड, सोहना, गृडगांव, हरियाणा उमर मोहम्मद, पुत्र श्री रसूल खान, एच.नं. 168, ग्राम रेवासन मेवात, नूह, फरीदाबाद, हरियाणा श्रीमती नूरा, पत्नी श्री रसूल खान, 168, ग्राम रेवासन मेवात, नूह, फरीदाबाद, हरियाणा

जैसा के ओए/1716/2021 दिनांक 1.07.2023 को माननीय पीठासीन अधिकारी/रजिस्ट्रार के समक्ष सूचीबद्ध जैसा कि माननीय अधिकरण रु. 2770094/- के ऋणों की वसूली के लिए दाखिल (ओए) में अधिनियम की

4. श्रीमती जुबेदा, पत्नी श्री उमर मोहम्मद, 168, ग्राम रेवासन मेवात, नूह, फरीदाबाद, हरियाणा

धारा 19(4) के अंतर्गत उक्त आवेदन पर समन्स/सूचना सहर्ष जारी किया है। (दस्तावेजों आदि की प्रतियों अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (4) के अनुसार प्रतिवादियों को निम्न निदेश दिया जाता है।

i) समन्स की सर्विस के तीस दिनों के भीतर यह कारण दर्शाएं की मांगी गई राहतों को क्यूं न स्वीकार की ii) मूल आवेदन के क्रमांक 3 ए के अंतर्गत आवेदक द्वारा निर्दिष्ट सम्पत्तियों तथा परिसम्पत्तियों के अतिरिक्त

सम्पत्ति या परिसम्पत्तियों के विवरणों को उद्घाटित करना ii) सम्पत्तियों के एटैचमेन्ट के लिए आवेदन की सुनवाई तथा निपटारे के लम्बित होने की स्थिति में मूल

आवेदन के क्रमांक 3ए के अंतर्गत उद्घाटित किसी अन्य परिस्थितियों एवं सम्पत्तियों अथवा प्रतिभृत

या उद्घाटित किसी अन्य परिसम्पत्तियों या सम्पत्तियों का बिक्री, पट्टा या अन्य रूप से आप अंतरण नहीं

परिसम्पत्तियों का व्यवसाय या निपटारा करने से आपको वंचित किया जाता है। i) आप अधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया के अतिरिक्त ऐसी किसी भी परिसम्पत्तियों जिस पर प्रतिभूति हित निर्मित है एवं/ अथवा मूल आवेदन के क्रमांक 3ए के अन्तर्गत निर्दिष्ट

v) आप प्रतिभृत परिसम्पत्तियों या व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में अन्य परिसम्पत्तियों तथा सम्पत्तियों अथवा प्रतिभृत परिसम्पत्तियों की बिक्री द्वारा उगाही की गई बिक्री राशि का ब्यौरा देने तथा ऐसी परिसम्पत्तियों पर प्रतिभृति हित धारित करने वाले बैंक या वित्तीय स्थानों में प्रबंधित खाता में उक्त बिक्री राशि जमा

प्रस्तुत करें तथा 5.10.2023 को 10.30 को पूर्वा. में रजिस्ट्रार के समक्ष उपस्थित हों, अन्यथा आवेदन की सुनवाई तथा निर्णय आपकी अनुपस्थिति में की जाएगी। मेरे हाथ से तथा अधिकरण की मुहर लगाकर आज दिनांक 17.07.2023 को दी गई।

आपको यह भी निर्देश दिया जाता है कि आप लिखित स्पष्टीकरण दें तथा उसकी एक प्रति आवेदक के पास

समन जारी करने के लिये अधिकृत अधिकारी का हस्ताक्षर

अधोलिखित निविदायें आईआरईपीएस वेबसाइट में प्रकाशित है। फर्मों से आग्रह है कि http://www.ireps.gov.inlogin>E Tender-goods & service (new) पर लॉगिन करें तथा इन निविदाओं के लिये कोट करें। इन निविदाओं

दक्षिण रेलवे

के लिये मैन्युअल कोटेशनों पर विचार नहीं होगा। सभी निविदाओं के बंद होने का समय 14.30 बजे है। एचएसडी ऑयल फायरिंग सिस्टम 52235561 24/07/2023

आईओएच किट

2.

26232612A

	EDEDED THE I		EG-G1/EGEG
3,	06224309D	मिल निर्मित बेड शीट	25/07/2023
4.	26232616A	पीओएच रिप्लेसमेन्ट किट	25/07/2023
5.	44230605	डोर वे क्रॉस बार	26/07/2023
6.	04230059B	एम्सल बॉक्स हाउसिंग	27/07/2023
7.	02235603	एरिथ्रोपोईटीन इंजे.	28/07/2023
8.	0623FDAS-PGT	फायर डिटैक्शन का डिजायन, आपूर्ति, संस्थापन	28/07/2023
9.	11235008	हेवी ड्यूटी यात्री लिफ्ट	28/07/2023
10.	04231090	रबड़ पैड	28/07/2023
11.	78235940	पी.सी.बी. डायनोस्टिक टेस्ट सिस्टम	28/07/2023
12.	02235602	मेटोप्रोलोल ओरल टैब्लेट	31/07/2023
13.	02235620	एसीटाइल सेलीसाइकिल एसीड (एस्पीरिन) टैव	31/07/2023
14,	04230108	विअरिंग पिस	31/07/2023
15.	52235580	सिंगल पैक पीयू का एस 7ए	31/07/2023
16.	90236448	लैडर ट्रॉली	31/07/2023
17.	90236181	आपूर्ति, संस्थापन-हाइड्रॉलिक रेस्क्यू डिवायस	31/07/2023
18.	06231137	सर्वोप्लेक्स	01/08/2023
19.	11230574	ब्रशलेस डीसी	01/08/2023
20.	26233458	थिन वाल्ड इलेक्ट्रॉन बीम	01/08/2023
21.	26235007	2x130 केवीए स्टैटिक इन्वर्टर	01/08/2023
22.	44230241B	कॉप्लर बाडी	01/08/2023
23.	52235507	ब्रेक कॉन्टैक्ट्स पार्ट फिनीश्ड	01/08/2023
24.	68236048	हाई कैपेसिटी ड्राफ्ट गियर	01/08/2023
25.	04231066	सील्ड ग्लास यूनिट	02/08/2023
26.	26232717	् एक्सल बॉक्स हाउसिंग	03/08/2023
27.	02235627	एटॉरवैस्टेटिन ओरल टैब	03/08/2023
28.	02235655	लिनाग्लिपटिन 5एमजी टैब	03/08/2023
29.	78235997	यॉक पिन	03/08/2023
30.	26231162	नॉमिनल साइज कास्ट आयरन ब्रेक शू	04/08/2023
31.	02235660	मेटफोर्मिन 1000 एमजी	04/08/2023
32.	02235661	रिबोसिविलब 200 एमजी टैब	04/08/2023
33.	02235662	ग्लिमपिरायड 2 एमजी टैब	04/08/2023
34.	44230038	एन्हैन्सु कैपासिटी साइड बफर प्लंजर	04/08/2023
35.	53235127A	सेन्ट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम की आपूर्ति एवं संस्थापन	
-		~ .	04/08/2023
36.	02235666	एडलीमुमैब 40 एमजी इंज.	07/08/2023
37.	26232734A	एक्सल बॉक्स हाउसिंग	07/08/2023
38.	012302278	सिलिण्ड्रिकल रॉलर बिअरिंग	07/08/2023
39.	02235663	इंसूलिन ग्लैरजाइन 100 आईयू	07/08/2023
40.	02235665	इलेट्रॉम्बोपैग ओलामाइन 50 एमजी	07/08/2023
41.	11231039	बी चेक किट	07/08/2023
42.	02235664	विटामिन बी1, बी6 आदि	07/08/2023
43,	78236028	एडाप्टर बाइड जॉ	07/08/2023
44.	03235260	कटर चैन एसेम्बली	08/08/2023
45.	53235249	रोटेशनल अर्थेरेक्टॉमी सिस्टम	08/08/2023
46.	04231164	सेकण्डरी लेटरल डम्पर	09/08/2023
47.	78236093	फ्रिक्शन बेड्ज-बीएलसी एवं बीएफकेएन	09/08/2023
48.	78235531B	डिजायन, निर्माण, आपूर्ति	09/08/2023
49.	06235001B	मिनिमली इन्वेसिव स्पाइनल इन्स्टुमेन्ट्स	10/08/2023
50.	78235993	फोर्ज्ड डोर हिंज	10/08/2023
51.	04230161	एन्कर लिंक 451 एमएम	11/08/2023
52.	11235007	अन्ट्रन्सुलेटेड कैडमियम कॉपर	14/08/2023
53.	78235732	वाल्व रेग्युलेटेड लीड एसीड बैट्टीज 1100	16/08/2023
54.	78236082	160 केएन एयर स्प्रिंग, एलएचबी बॉगी के लिये	16/08/2023
200	, DE0000E	the section of the se	10.00.000

Follow us on : witter.com/GMSRailways

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

पीरामल कैपिटल एण्ड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड @ Piramal (पूर्व की देवन हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड) सीआईएन : L65910MH1984PLC032639

-601, 6ठी मंजिल पीरामल एमिटी बिल्डिंग, पीरामल अगस्त्य कॉपोरेंट पार्क, कमानी जंक्शन फायर स्टेशन के सामने, एलबीएस मार्ग, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई-400070 -दूरभाष : +91 22 3802 4000 शाखा कार्यालयः प्लॉट नं. ६, ब्लॉक ए, सेक्टर -2, नोएडा-201 301

संपर्क व्यक्ति : . निशांत गौतम - 9899216466, 2. नवीन कपूर - 9810854841, 3. रोहन सावंत - 9833143013

इ-नालामा बिक्री सूचना-नवान बिक्री ऋणधारक/ को से बकाय राशि का वसला के लिये विताय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनानमाण तथा प्रतिभृति हित प्रवत्तन आधानयम, 2002 के अतर्गत पीरामल कैपिटल एण्ड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व की डीएचएफएल) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा यहां नीचे वर्णित प्रतिभूत परिसम्पत्ति के कब्जे के अनुपालन

लाख मात्र)

रु.1330000/

(रुपये तेरह

लाख तीस हजार

मात्र)

रु.2360000/-

(रुपये तेईस

लाख साठ हजार

मात्र)

रु.3270000/-,

(रुपये बत्तीस

लाख सत्तर

हजार मात्र)

रु.2430000/−,

(रुपये चौबीस

लाख तीस हजार

मात्र)

रु.3710000/

(रुपये सैंतीस

लाख दस हजार

मात्र)

रु.2800000/−,

(रुपये अट्टाईस

लाख मात्र)

रु.2110000/−,

(रुपये इक्कीस

लाख दस हजार

मात्र)

रु. 1878000/-

में भौतिक कब्जे में नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति की ''**जैसा है जहां है आधार'', ''जो भी जैसा है आधार'' तथा ''जो कुछ भी वहां है''** आधार पर खरीद के लिये अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रस्ताव आमंत्रित है जिसके विवरण निम्नलिखित हैं। कर्जदार(रों)/सह-कर्जदार(रों)/ ईएमडी) (आरपी तिथि एवं राशि पता-अन्तिम (13-07-2023) का 10%) जमानती(यों) চ. 200000/ भाग : पुरानी संख्या 601/7ए तीसरी (रुपये बीस (रुपये बत्तीस लाख 13000002424. 24-05-2021, (रुपये दो लाख

मंजिल छत के अधिकार के साथ खसरा

नं.-593, नया पी.नं.-850, गली नंबर 7

ए, अशोक नगर, मंडोली रोड, शाहदरा

दिल्ली नई दिल्ली दिल्ली: 110018.

दिल्ली:-110019

अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त

कृष्णा पुरी, दिल्ली नई दिल्ली

दिल्ली:- 110018

अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त

भाग : प्लॉट नंबर एम 32 छत के

अधिकार के साथ तीसरी मंजिल,

ब्लॉक एम तिहाड़, हरि नगर नई दिल्ली

नई दिल्ली दिल्ली 110064

अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त

भाग : - सम्पत्ति नंबर- आरजेड आई/67

अपर ग्राउंड फ्लोर खसरा नंबर 15/13

महावीर एन्क्लेव ग्राम मीरजापुर पालम नई|

अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त

चक्रेश जैन (गारंटर 1) 2 ऋण कोड संख्या 26600001205 . 199000/-रु. 1990000/− भाग : डब्ल्यूजेड- 283/26, ऊपरी 24-05-2021, (रुपये एक दिल्ली राजौरी गार्डन (शाखा) (रुपये उन्नीस रु. 1630701/-, भूतल, प्लॉट नंबर 26, खसरा नंबर लाख निन्यानबे मोहम्मद सिराजुल (कर्जदार), लाख नब्बे हजार (रुपये सोलह लाख 19/12, गली नंबर 2, गांव ख्याला, विष्णु हजार मात्र) मात्र) रायसा बेगम (सह-कर्जदार 1) तीस हजार सात सौ गार्डन एक्सटेंशन, दिल्ली नई दिल्ली एक मात्र) दिल्ली:-110018 ऋण कोड संख्या अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त रु. 2100000/ रु. 210000/ 26-07-2019, 09200001827, भाग : म.नं. 69-बी, छत के अधिकार के (रुपये इक्कीस (रुपये दो लाख

रु. 1573802/−, रोहिणी (शाखा), साथ तीसरी मंजिल, नवयुग ब्लॉक, खसरा लाख मात्र) राजेंदर सिंह (कर्जदार) (रुपये पन्द्रह लाख नंबर 35/8/1, वंदना मॉडल स्कूल के तिहत्तर हजार आठ सौ हरप्रीत कौर पास, विष्णु गार्डन, दिल्ली नई दिल्ली दो मात्र) (सह-कर्जदार 1) दिल्ली:- 110018 दिनांकः ऋण कोड संख्या अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त रु. 2040000/-28-06-2021, 133000001028, कनॉट प्लेस (रुपये बीस भाग : फ्लैट नंबर ए - 3, दूसरी मंजिल रु. 2031110/-(शाखा), मोनिका गुप्ता लाख चालीस एलएचएस भाग खसरा नंबर 820/3 और (रुपये बीस लाख (कर्जदार), जेम्स माइकल हजार मात्र)

रु. 2457471/−,

(रुपये चौबीस लाख

सत्तावन हजार चार सौ

इकहत्तर मात्र)

गुड़गांव (शाखा),

अनुज कुमार जैन (कर्जदार),

विवेक कुमार जैन (सह-कर्जदार

1) सरला जैन (सह-कर्जदार 2)

823 का हिस्सा, विस्तारित लाल डोरा इकतीस हजार एक सौ (सह-कर्जदार 1) आबादी गांव बुराड़ी, दिल्ली उत्तर पश्चिम दस मात्र) दिल्ली दिल्ली:-110084 दिनांकः अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त ऋण कोड संख्या भाग : - संपत्ति संख्या आरजेड-86, 20-07-2021, 19000001987, राज नगर तीसरी मंजिल पीछे की ओर खसरा संख्या ₹. 1345241/-, (शाखा), राजीव कुमार (रूपये तेरह लाख 501 गली नंबर-13, तुगलकाबाद (कर्जदार), संजना

पैंतालीस हजार दो सौ एक्सटेंशन, नई दिल्ली नई दिल्ली (सह-कर्जदार 1) इकतालीस मात्र) ऋण कोड संख्या दिनांकः अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त 19700043928, भाग : म.नं. २६४, खसरा नंबर 23-04-2019, गुड़गांव - सोहना रोड (शाखा), रु. 3013874/−, 11149/3218/8011150/80/2 परवीन (कर्जदार), पूजा कुमारी (रूपये तीस लाख तेरह 11151/80/3, 11152/80/4, (सह-कर्जदार 1) ब्रह्म प्रकाश 11153/80/5, 11154 80/6,11155/ हजार आठ सौ चौहत्तर (सह-कर्जदार 2) 80/7 वाका सिवाना मौजा राजेंदर पार्क मात्र) गुड़गांव गुड़गांव हरियाणाः 122001

ऋण कोड संख्या दिनांक: भाग : जिनकी सीमा है:- डब्ल्यूजेड-36, 13100002328, 30-04-2021, नोएडा 1 राजेंद्र प्लेस तीसरी मंजिल पीछे की ओर (पश्चिमी रु. 2908766/-भाग) बिना छत के अधिकार के, खसरा (शाखा), उर्वशी (कर्जदार), (रुपये उनतीस लाख नंबर 1, गांव नंगलीजालिब, गली नंबर 11 विकास साहनी (सह-कर्जदार 1) आठ हजार सात सौ छियासट मात्र) ऋण कोड संख्या दिनांकः

09600001074, 24-09-2021, नई दिल्ली-पश्चिम (शाखा), रु. 2757006/-अमित अग्रवाल (कर्जदार), (रुपये सत्ताईस लाख मनीष अग्रवाल (सह-कर्जदार 1) सत्तावन हजार छः मात्र) दिनांकः 9 ऋण कोड संख्या 19000001355 राज नगर (शाखा), श्वेता कुमारी 20-07-2021, ₹. 3331040/-(कर्जदार), शंकर कुमार

(सह-कर्जदार 1)

ऋण कोड संख्या

19000001152, राज नगर

(शाखा), अतुल कुमार झा

(कर्जदार), नीता पाठक

(सह-कर्जदार 1)

ऋण कोड संख्या

19600043321,

दिल्ली - सफदरजंग

(शाखा), विनोद प्रसाद

(कर्जदार), इंदु देवी

(सह-कर्जदार 1)

ऋण कोड संख्या

19700044374,

गुड़गांव - सोहना रोड

(शाखा), हेमांशु (कर्जदार),

करुणा (सह-कर्जदार 1)

ऋण कोड संख्या

09600002144,

नई दिल्ली-पश्चिम (शाखा)

सतीश मौर्य (कर्जदार),

अनीता देवी (सह–कर्जदार 1)

ऋण कोड संख्या

197GUR34467,

गुड़गांव - सोहना रोड (शाखा),

आनंद सिंह नेगी (कर्जदार),

भावना थपलियाल

(सह-कर्जदार 1)

ऋण कोड संख्या

दिल्ली - पीतमपुरा (शाखा)

सोनी अरामचेरी जॉनी (कर्जदार)

जोस के जिलु (सह-कर्जदार 1)

ऋण कोड संख्या

दिल्ली राजौरी गार्डन

(शाखा), गुरमित (कर्जदार),

जमोत्री (सह-कर्जदार 1)

ऋण कोड संख्या

25500001104,

नेताजी सुभाष प्लेस

(शाखा), लेखराज (कर्जदार),

आशा रानी (सह-कर्जदार 1)

ऋण कोड संख्या

283000000287,

रोहतक (शाखा), राधे प्रसाद

(कर्जदार), बबीता

(सह-कर्जदार 1)

ऋण कोड संख्या

01400003593,

नई दिल्ली (शाखा), रमेश

(कर्जदार), करण चंद्र आर्य

(सह-कर्जदार 1)

ऋण कोड संख्या

19800041679,

दिल्ली- पीतमपुरा (शाखा)

मोहम्मद साबिर अंसारी

(कर्जदार), नूरी बेगम

(सह-कर्जदार 1)

ऋण कोड संख्या

27300000416,

द्वारका (शाखा), प्रवीण चंद्रन

(कर्जदार), सुधा चंद्रन

(सह-कर्जदार 1)

ऋण कोड संख्या

20000043072,

नोएडा- सेक्टर 2 (शाखा),

जहांगीर (कर्जदार), राबिया बेगम

(सह-कर्जदार 1)

20

22

10

25/07/2023

इकतीस हजार चालीस दिल्ली नई दिल्ली दिल्ली:-110045 मात्र) ऋण कोड संख्या दिनांकः 19800041463. 22-02-2022, भाग : प्लॉट नंबर 122 और 123 पहली दिल्ली - पीतमपुरा (शाखा), रु. 2504298/-मंजिल (सामने की ओर) खसरा नंबर सतीश शर्मा (कर्जदार), संगीता 7/21/2 ओम विहार एक्सटेंशन उत्तम नगर (रुपये पच्चीस लाख शर्मा (सह-कर्जदार 1) नई दिल्ली नई दिल्ली दिल्ली -110059 चार हजार दो सौ अट्ठानवे मात्र)

(रुपये तैंतीस लाख

दिनांकः अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भागः 12-05-2021, लॉट नंबरः 1626 दूसरी मंजिल (पीछे की रु. 2491340/-, ओर) गली नंबरः 14, गोविंदपुरी (रुपये चौबीस लाख कालकाजी हनुमान मंदिर के पास नई इक्यानवे हजार तीन सौ दिल्ली नई दिल्ली दिल्ली -110019 चालीस मात्र) दिनांकः अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त

23-04-2019,

(रुपये अठारह लाख

चवालीस हजार आठ

सौ पैंतीस मात्र)

दिनांकः

26-02-2022,

रु. 1352039/-

(रुपये तेरह लाख

बावन हजार उनतालीस

मात्र)

दिनांकः

28-07-2022,

रु. 1615795/−,

(रुपये सोलह लाख

पन्द्रह हजार सात सौ

पिचानबे मात्र)

दिनांकः

08-10-2021,

₹. 2220466/-,

(रुपये बाईस लाख

बीस हजार चार सौ

छियासठ मात्र)

दिनांकः

23-03-2022,

₹. 1304646/-

(रुपए तेरह लाख चार

हजार छह सौ

छियालीस मात्र)

दिनांकः

16-06-2021,

रु. 1160221/-

(रुपये ग्यारह लाख

साठ हजार दो सौ

इक्कीस मात्र)

दिनांकः

26-07-2019,

₹. 2168225/-,

(रु. इक्कीस लाख

अड़सठ हजार दो सौ

पच्चीस मात्र)

दिनांकः

20-07-2021,

रु. 1259132/−,

(रुपये बारह लाख

उनसठ हजार एक सौ

बत्तीस मात्र)

दिनांकः

28-06-2021,

₹. 1163836/-,

(रुपये ग्यारह लाख

तिरसठ हजार आठ सौ

छत्तीस मात्र)

दिनांकः

16-06-2021,

रु. 1295878/−,

(रुपये बारह लाख

पंचानवे हजार आठ सौ

अठहत्तर मात्र)

दिनांकः

16-06-2021,

रु. 1746589/−,

(रुपये सत्रह लाख

छियालीस हजार पांच

सौ नवासी मात्र)

भाग : प्लॉट नंबर 92, प्लॉट, पॉकेट -3 (रुपये एक रु. 5172217/−, सेक्टर -21 रोहिणी, दिल्ली नई दिल्ली करोड़ सत्तासी (रुपये इक्यावन लाख दिल्ली -110085 लाख अस्सी बहत्तर हजार दो सौ हजार मात्र) सत्रह मात्र) दिनांकः अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भाग : रु. 1540000/-12-05-2021, पी.नं. 311 और 312, एस.एफ., खसरा ₹. 1844835/-, नं.-387, ग्राम.नवादा, ब्लॉक-आई,

नं-50/1/2 और 2, ग्राम-पालम, गली नं-

17 राज नगर-2, पालम कॉलोनी नई दिल्ली

उत्तर पश्चिम दिल्ली दिल्ली :- 110077

अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भाग :

एच/फ्लैट नंबर 377, फ्लोर नंबर 4,

पॉकेट - बी-1, सेक्टर बक्करवाला, गांव,

नई दिल्ली दिल्ली दिल्ली:-110026

अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त

भाग : प्लॉट नंबर-सी-30-ए, ऊपरी

ग्राउंड फ्लोर का पिछला भाग बिना छत के

अधिकार के, खसरा नंबर 947, गुलाब

बाग, गांव नवादा, उत्तम नगर, दिल्ली,

नई दिल्ली, दिल्ली:-110059

भाग : सम्पत्ति नंबर 87 और 88, छत के

अधिकार के साथ तीसरी मंजिल रियर

यूनिट, खसरा नं. 109/15/1, गली नंबर

19 भरतविहार राजपुरी उत्तमनगर नई

दिल्ली नई दिल्ली दिल्ली:-110059

अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भाग :

प्लॉट नंबर 84-ए, छत के अधिकार के

साथ तीसरी मंजिल का पिछला भाग

ब्लॉक-ए गली नंबर 19 खसरा नंबर

109/14 गांव पालम, उत्तम नगर, दिल्ली

नई दिल्ली दिल्ली -110045

अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भाग :

मकान संख्याः 631, सेक्टरः 2-3-4

हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, अपराध शाखा

कार्यालय के पास, रोहतक,

हरियाणाः- 124001

अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त

भाग : फ्लैट नंबर 800 दूसरी मंजिल डी

डी ए जनता फ्लैट पॉकेट बी सेक्टर 16 बी

द्वारका नई दिल्ली दिल्ली:-110075

अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त

भाग: आरजेडएच-299-ए, दुसरी

मंजिल. पीछे की ओर गली नंबर 10ए,

राज नगर-क्क पालम कॉलोनी, नई

दिल्ली, नई दिल्ली दिल्ली:-110002

अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त

भाग : आरजेड-232-बी/2, तीसरी

मंजिल रियर एलएचएस, छत के अधिकार

के साथ खसरा नं. 55/16 और 54/21/1,

ग्राम पालम, राज नगर-2 दिल्ली नई

दिल्ली दिल्ली:-110045

अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त

भाग : संपत्ति संख्या 1279-ए/8 ऊपरी

भृतल पीछे की ओर खसरा नंबर 93 गली

नंबर 8 गोविंदपुरी कालकाजी, दिल्ली नई

दिल्ली दिल्ली -110019

(रुपये पन्द्रह लाख चालीस एक्सटेंशन मोहन गार्डन, उत्तम नगर, नई हजार मात्र) दिल्ली नई दिल्ली दिल्ली -110059 अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भाग रु. 1230000/ आरजेड-जी-465बी, टीएफ (छत के (रुपये बारह अधिकार के साथ पीछे की ओर) खसरा लाख तीस हजार

(रुपये एक छियानवे हजार एक लाख तेईस हजार मात्र) रु.1710000/-रु. 171000/-(रुपये सत्रह (रुपये एक लाख दस हजार लाख इकहत्तर

मात्र)

रु. 1880000/-

(रुपये अट्ठारह

लाख अस्सी

हजार मात्र)

रु. 1500000/-

(रुपये पन्द्रह

लाख मात्र)

रु. 1420000/−,

(रुपये चौदह

लाख बीस हजार

रु.2550000/−,

(रुपये पच्चीस

लाख पचास

हजार मात्र)

रु.1500000/−,

(रुपये पन्द्रह

रु. 1010000/−

(रुपये दस लाख

दस हजार

मात्र)

रु.2190000/−,

(रुपये इक्कीस

लाख नब्बे हजार

मात्र)

रु.1720000/−,

(रुपये सत्रह

लाख बीस हजार

बत्तीस हजार एक सौ इकसठ मात्र) हजार मात्र) रु. 188000/-रु.2752087/-(रुपये एक (रुपये सत्ताईस लाख अट्टासी लाख बावन हजार सत्तासी मात्र) हजार मात्र)

रु. 150000/-रु.1526161/-(रुपये एक (रुपये पन्द्रह लाख लाख पचास छब्बीस हजार एक सौ इकसठ मात्र) हजार मात्र)

रु. 142000/-रु.1527935/-(रुपये पन्द्रह लाख (रुपये एक लाज हागालीच समार्दस हजार नौ स हजार मात्र) पैंतीस मात्र)

₹.3082721/-, रु. 255000/-(रुपये तीस लाख (रुपये दो लाख बयासी हजार सात पचपन हजार सौ इक्कीस मात्र) मात्र) ₹.1538582/-रु. 150000/-

(रुपये एक

लाख पचास

हजार मात्र)

रु. 101000/-

(रुपये एक

लाख एक हजार

मात्र)

रु. 219000/-

मात्र)

(रुपये पन्द्रह लाख अड़तीस हजार पांच सौ बयासी मात्र) रु.1321362/−, (रुपये तेरह लाख इक्कीस हजार तीन सौ बासठ मात्र)

रु.1649410/-(रुपये सोलह लाख

ऋण कोड संख्या 28200000023 एवं 19700044335, लाजपत नगर (शाखा), सुशील कुमार (कर्जदार), पिंकी बैसोया (सह-कर्जदार 1 दिलावर सिंह बैसोया (सह-कर्जदार 2)

रु. 2742961/−. (रुपये सत्ताईस लाख बयालीस हजार नौ सौ इकसठ मात्र) दिनांकः 27-07-2021, ₹. 11484864/-(रुपये एक करोड़ चौदह लाख चौरासी हजार आठ सौ चौंसठ मात्र) और दिनांकः 27-07- 2021,

दिलशाद गार्डन दिल्ली दिल्ली रु. 851275/−, नई दिल्ली दिल्ली-110095 (रुपये आठ लाख इक्यावन हजार दो सौ पचहत्तर मात्र) एवं दिनांकः 20-02-2020,

अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भाग : मकान नंबर ए 33 ग्राउंड फ्लोर ब्लॉक ए साउथ एक्सटेंशन पार्ट 1 दिल्ली नई दिल्ली दिल्ली -110017।

(रुपये एक (रुपये सोलह करोड़ पैंसठ लाख बावन लाख बीस हजार हजार मात्र)

रु. 16520000/−

नौ सौ अट्ठासी

बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए www.piramalfinance.com/e-Auction.htm' में प्रावधानित लिंक देखें या हमें piramal.auction@piramal.com पर ई-मेल करें। कर्जदार/जमानती/बंधककर्ता को सरफैसी अधिनियम के तहत 30 दिवसीय सांविधिक सचना उपरोक्त उल्लिखित कर्जदार/गारंटर को एतद्वारा धारा 13(2) नोटिस में उल्लिखित राशि का भुगतान अर्जित ब्याज के साथ पूर्ण रूप से नीलामी की तिथि से पहले तक करने वे

लिए कहा जाता है, जिसमें विफल होने पर संपत्ति की नीलामी/बिक्री की जाएगी और शेष राशि यदि कोई होगी कर्जदार/गारंटर से ब्याज और लागत के साथ वसुल किया जाएगा स्थान : दिल्ली, तिथि : 19.07.2023 ह./- (अधिकृत प्राधिकारी) पीरामल कैपिटल एण्ड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

www.readwhere.com

हजार मात्र)

रु. 172000/-(रुपये एक उन्नीस हजार सात लाख बहत्तर सौ चौवालीस मात्र)

(रुपये दो लाख उनतालीस हजार उन्नीस हजार

चार सौ दस मात्र)

(रुपये इक्कीस लाख अन्तिम तिथि : 23.08.2023 को 4.00 बजे अप. से पर्व

बिसंबरी देवी (गारंटर 1)

रु. 3632970/−, (रुपये छत्तीस लाख बत्तीस हजार नौ सौ सत्तर मात्र)

ई-नीलामी की तिथि : 24.08.2023, 11.00 बजे पूर्वा. से 2.00 बजे अप. (5 मिनट प्रत्येक के असीमित विस्तार सिंहत), संविदा जमा करने की

Chandigarh

FINANCIAL EXPRESS

INDORE MUNICIPAL CORPORATION, INDORE

TENDER NOTICE NIT No.: 06/SBM/23-24 Date: 14.07.2023 Online bids are invited for SITC of the following equipment. Tender forms may be purchased online by the

S.No.	Name of Work	Probable Amount of Work	Cost of Tender Form	Earnest money Deposit	Time allowed for Completion
1	Supply, Installation, Testing and Commissioning of Transfer Station equipment's. (04 No. Static Compaction System with Loading Mechanism, 10 No. Detachable Containers (20 cum. Capacity)	₹ 9.0 Cr./-	₹ 20,000/-	₹ 4.50 Lakh	06 months

Key Dates for Tender processing are as under:-

and 06 No. Hook Loader with vehicle

bidders, fulfilling eligibility criteria as per RFP document.

S. No.	Description	Date and Time
1.	Last date for Purchase & submission of Tender (Online)	17.08.2023 till 17:30 Hrs.
2.	Pre Bid Meeting at Smart City Office Nehru Park	27.07.2023 at 15:00 Hrs.

Notes:-

Tender Document and other details shall be available on Website-www.mptenders.gov.in Amendment to NIT, if any would be published only on website www.mptenders.gov.in.

> **Executive Engineer** Indore Municipal Corporation, Indore

MAGNA MAGNA ELECTRO CASTINGS LIMITED

(CIN:L31103TZ1990PLC002836) 43, Balasundaram Road, Coimbatore 641018

Phone:0422-2240109; website:www.magnacast.com; email:info@magnacast.com

NOTICE OF THE 33RD ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING AND BOOK CLOSURE INFORMATION

Dear Members, Notice is hereby given that 33rd Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Saturday, 26th August, 2023 at 3.30 PM (IST) through Video Conference (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM) to transact the business, as set out in the Notice of AGM dated 30th May, 2023.

The Company has sent the Notice of AGM to those shareholders holding shares of the Company as on 17th July, 2023, through e-mail to Members whose e-mail addresses are registered with the Company / Depositories in accordance with the General Circular(s) dated 5th May 2020 read with Circulars dated 8th April, 2020, 13th April, 2020, 15th June, 2020, 28th September, 2020, 31st December, 2020, 13th January, 2021, 14th December, 2021, 5th May, 2022 and 28th December, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and Circulars dated 12th May 2020, 15th January 2021, 13th May, 2022 & 5th January, 2023 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circulars").

The AGM Notice along with the explanatory statement and the Annual Report for the financial year 2022-23 is available and can be downloaded from the Company's website www.magnacast.com and the website of Stock Exchanges in which the shares of the Company are traded/listed i.e., BSE Limited and on the website of Link Intime India Private Limited (LIIPL) at https://instavote.linkintime.co.in/.

Members can attend and participate in the Annual General Meeting through VC/OAVM facility only. The instructions for joining the Annual General Meeting are provided in the Notice of the Annual General Meeting. Members attending the meeting through VC/ OAVM shall be counted for the purposes of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration Rules, 2014 as amended from time to time and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements Regulations, 2015, the Members are provided with the facility to cast their votes on all resolutions set forth in the Notice of the AGM using remote electronic voting system (remote e-voting) provided by LIIPL. Additionally, the Company is providing the facility of voting through e-voting system during the Annual General Meeting ("e-voting"). Detailed procedure for remote e-voting/ e-voting is provided in the Notice of the Annual General Meeting. For further details in connection with e-voting, members may also visit the website https://instavote.linkintime.co.in/.

The Board of Directors of the Company has appointed Sri. M D Selvaraj, Managing Partner of M/s. MDS & Associates LLP, Company Secretaries, Coimbatore as Scrutinizer to scrutinize the voting process in a fair and transparent manner. Members are requested to carefully read the instructions printed for voting through e-voting on the AGM Notice. Members are also requested to note the following:

1	Date of completion of dispatch of Notice	17th July, 2023				
2	Date and time of commencement of remote e-voting	Wednesday, 23rd August 2023 (09.00 AM IST)				
3	Date and time of end of remote e-voting. Remote e-voting will not be allowed beyond this date and time.	Friday, 25th August 2023 (05.00 PM IST)				
4	4 Cut-off date of determining the members eligible for e-voting Saturday,19th August 2023					
Tho	Those Members, who shall be present in the AGM through VC / OAVM facility and had not cast their votes on the resolution through					

remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system during the AGM. A person whose name is recorded in the Register of Members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting at the Annual General Meeting. The voting rights of Members shall be in proportion to the shares held by them in the paid-up equity share capital of the Company as

The Members who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM may also attend / participate in the AGM through VC/OVAM but shall not be entitled to cast their votes again

Any person, who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after the Notice has been sent electronically by the Company, and holds shares as of the cut-off date, may follow the detailed instructions given in the AGM Notice

for accessing the e-voting platform. In case the shareholder's email ID is already registered with the Company/its Registrar & Share Transfer Agent "RTA"/Depositories,

log in details for e-voting are being sent on the registered email address. If you have not registered your e-mail address with the Company / Depository you may please follow below instructions for

obtaining login details for e-voting: Shareholders holding shares in physical mode are requested to send a request to the Registrar and Transfer Agent of the Company,

S.K.D.C Consultants Limited ("SKDC") at info@skdc-consultants.com by providing Folio no., name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested), Aadhar (Self-attested) for registering the e-mail address. Shareholders holding shares in Demat mode are requested to contact your Depository Participant ("DP") and register your e-mai

address in your Demat account, as per the process advised by your DP. For details relating to remote e-voting, please refer to the Notice of the AGM. If you have any queries relating to remote e-voting, please refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) and Instavote e-Voting manual available at https://instavote.linkintime.co.in, under Help Section or write an e-mail to enotices@linkintime.co.in or Call us at Tel: 022 - 49186000. In case of any grievances connected with facility for voting by electronic voting means during AGM, you can write an email to instameet@linkintime.co.in o

The result of voting will be announced by the Company in its website www. magnacast.com and on the website of Link Intime India Private Limited (LIIPL) and also will be intimated to BSE Limited.

Pursuant to Finance Act 2020, dividend income will be taxable in the hands of Shareholders with effect from 1st April 2020 and the Company is required to deduct tax at source from dividend paid to Shareholders at the prescribed rates. For the prescribed rates for various categories, the Shareholders are requested to refer to the Finance Act, 2020 and amendments thereof. Members are requested to submit the necessary documents to green@skdc-consultants.com from their registered mail id on or before

This public notice is also available in the Company's website viz. www.magnacast.com and in the website of LIIPL viz.

instavote.linkintime.co.in and on the website of BSE Limited where the shares of the Company are listed. Notice is hereby given that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from 20th August, 2023 to 26th August, 2023 (Both days inclusive) for AGM and payment of Dividend. Dividend for the year 2022-23, if declared at the AGM, will be paid to the Members whose name appear on the Register of Members and to the Beneficial Owners of Shares as per the details furnished by the Depositories, as the case may be, as at the close of the business hours on Saturday, 19th August, 2023

Place: Coimbatore Date: 18.07.2023

For Magna Electro Castings Limited Sri. N. Krishna Samara

Managing Director

DIN: 00048547

S. E. RAILWAY – TENDER Tender Notice No.: DRMENGGRNC-61-

2023, Dated: 18.07.2023. Divisional Railway Manager/Engg/Ranchi, South Eastern Railway, Ranchi-834003 for & on behalf of President of India, invites E-Tender for the following work: Notice No.: DRMENGGRNC-61-2023. Name of work: Provision of boundary wall/Compound wall along track/approaches (around) station in Ranchi Division at Km 423/18-423/30, 423/1-423/31, 427/13-427/33, 428/3-428/15 and 427/8-427/12 with length of Boundary wall 1839 mtr. Tender Value: ₹ 3.75.94.092.83. Earnest Money: ₹ 3,38,000. Tender closing date & time: 07.08.2023 at 15.00 hrs. Tenderers can visit the website www.ireps.gov.in for

"Form No. INC-25A" Pursuant to Rule 41 (5) (a) of the Companies (Incorporation) Rules, 2014 Before the Regional Director, Ministry of Corporate Affairs, Northern Region,

New Delhi In the matter of the Section 14 of the Companies Act, 2013 and Rule 41 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014

AND
In the matter of MAHAVIR CONCAST **LIMITED** (CIN: U65929DL1994PLC056854) having its Registered Office at B-231- D, 1ST FLOOR, GREATER KAILASH-I

NEW DELHI-110048

...Applicant

NOTICE is hereby given to the General Public that the company is intending to make an application to the Central Government under section 14 of the Companies Act, 2013 read with aforesaid rules and is desirous of Converting itself into a Private Limited company in terms of the special resolution passed at the Extra Ordinary General Meeting held on 12th June, 2023 to enable the company to give effect for such conversion. Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change / status of the company, may deliver or cause to be delivered or send by registered post of his objections supported by an affidavit stating the nature of his / her interest and grounds of opposition to the Regional Director, Northern Region, Ministry of Corporate Affairs, B-2 Wing, 2nd Floor, Pt. Deendayal Antyodaya Bhawan, CGO Complex, New Delhi-110003 within Fourteen days from the date of publication of this notice with a copy to the applicant company at its Registered Office

NEW DELHI-110048 For & on behalf of MAHAVIR CONCAST LIMITED JAI BABBAR Date: 19.07.2023

B-231- D, 1ST FLOOR, GREATER KAILASH-I.

address mentioned below:

(Director) Place : New Delhi DIN: 00963121

Form No. INC-26

[Pursuant to rule 30 the Companies (Incorporation) Rules, 2014] Before the Central Government, Northern Region, New Delhi In the matter of sub-section (4) of Section 13

of Companies Act, 2013 and clause (a) of sub-rule (5) of rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014

In the matter of GXO Logistics India Private Limited (Formerly XPO Logistics Worldwide India Private Limited) (CIN:-U74999DL2004PTC131022) having its registered office at RZ- A-219, 1st Floor Road No. 5, Mahipalpur Ext. New Delhi South Delhi DL 110037 IN

In Continuation of the previous publication dated 24.02.2023, Notice is hereby given to the General Public that the company proposes to make application to the Central Government under section 13 of the Companies Act, 2013, seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the special resolution passed at the Extra ordinary general meeting held on 23.02.2023 to enable the company to change its Registered Office from the "NCT of Delhi" to "State of Haryana".

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the company may deliver either on the MCA-21 portal (www.mca.gov.in) by filing investor compliant form or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the Regional Director at the address B-2 Wing, 2nd Floor, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, New Delhi - 110003 within fourteen office at the address mentioned below:

days of the date of publication of this notice with a copy to the applicant company at its registered R.O.:- RZ- A-219, 1st Floor Road No. 5 Mahipalpur Ext. New Delhi South Delhi DL

110037 IN

For and behalf of **GXO Logistics India Private Limited**

Place: New Delhi Date: 18.07.2023

Shailender Pandey (Company Secretary) M. No. F10198

FORM A PUBLIC ANNOUNCEMENT

(Regulation 14 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India

(Voluntary Liquidation Process) Regulations, 2017)

1.	Name of Corporate Person	ZYTER INDIA PRIVATE LIMITED
2	Date of incorporation of Corporate Person	03/12/2020
3.	Authority under which Corporate Person is incorporated /registered	RoC-Delhi
4.	Corporate identity number / limited liability identity number of Corporate Person	U72900DL2020FTC374102
5.	Address of the registered Office and Principal office (if any) of Corporate Person	157, Somdutt Chamber - II 9, Bhikaji Cama Pla New Delhi – 110066
6.	Liquidation commencement date of Corporate Person	14/07/2023
7.	Name, address, email address, telephone number and the registration number of the Liquidator	Devendra Umrao Registered Address: B-43A, First Floor, Kalkaji, New Delhi - 110019

Correspondence Email: zyter.liquidation@gmail.com Telephone/ Mobile No.: +91-9871045874 Regn. No.: IBBI/IPA-003/IP-N00223/2019-20/12640 Last date for submission of claims 13/08/2023 Notice is hereby given that Zyter India Private Limited has commenced voluntary liquidation on

Registered Email: devumraoibc@gmail.com

The stakeholders of Zyter India Private Limited are hereby called upon to submit a proof of their claims,

on or before 13/08/2023, to the liquidator at the address mentioned against item 7. The financial creditors shall submit their proof of claims by electronic means only. All other stakeholders

may submit the proof of claims in person, by post or by electronic means.

Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties. Devendra Umrao

Place: New Delhi

Liquidator, Zyter India Private Limited Regn. No.; IBBI/IPA-003/IP-N00223/2019-20/12640 | AFA Valid upto; November 10, 2023 JAMNA AUTO INDUSTRIES LIMITED

(IAI) CIN: L35911HR1965PLC004485

Regd. Office: Jai Springs Road, Industrial Area, Yamuna Nagar - 135001, Haryana; Telephone No. 01732-251810/11/14 Corporate Office: Unit No. 408,4th Floor, Tower-B, Vatika Mindscapes,

Sector-27D, NH2, Faridabad 121003(HR.) Tel. 0129-4006885; Email Id: investor.relations@jaispring.com Website: www.jaispring.com

Notice is hereby given, that the Board of Directors of the Company at its meeting held on May 29, 2023 has recommended final Dividend of Rs.1.10 (One Rupee Ten paisa) per equity share of nominal value of Rs.1 each for the financial year 2022-23 subject to the approval of members at ensuing 57th Annual General Meeting. The record date to determine eligible shareholders entitled to receive the dividend has been fixed as Friday July 21, 2023.

NOTICE

In accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961 as amended by and read with the provisions of the Finance Act, 2020, the Company would be required to withhold taxes at the prescribed rates on the dividend paid to its shareholders. The withholding tax rate would vary depending on the residential status of the shareholders and the documents submitted by them and accepted by the Company. Accordingly, the final dividend will be paid after withholding the tax at source at the prescribed rates. Shareholders who wish to claim beneficial or concessional rate of withholding tax (as

per DTAA/Income Tax Act, 1961), need to submit the documents as prescribed a Company's website i.e. https://www.jaispring.com/assets/investor-relation/corporate governance/tax-exemption-form-for-TDS.pdf to avail such beneficial or concessional rates. The documents, as applicable, should be provided to the Company or Skyline Financial Services Private Limited ("Registrar & Transfer Agent") on their email-id i.e investor.relations@jaispring.com and/or parveen@skylinerta.com on or before cut-of date i.e. July 25, 2023 to enable the Company to determine the appropriate withholding tax rates. No communication on the tax determination/deduction received post cut-of date i.e. July 25, 2023 shall be considered for payment of the final dividend. It is advisable to provide the documents at the earliest to enable the Company to collate the document to determine the appropriate rates of withholding tax. Application of beneficial of concessional tax rates shall depend upon the completeness of the documents submitted by the Shareholders and review to the satisfaction of the Company.

The Company has also sent this communication to the Shareholders at their registered email id's and copy of the same is also available on the website of the Company a www.iaispring.com. For Jamna Auto Industries Limited

Place: New Delhi Praveen Lakhera Date: July 18, 2023 Company Secretary & Head-Lega

INVITATION FOR SUBMISSION OF OFFERS FOR AUTO ASSET SALE OF M/S OCL IRON AND STEEL LIMITED (CIN - L271020R2006PLC008594)

pertaining to the Auto Division on "AS IS WHERE IS, AS IS WHAT IS, WHATEVER THERE IS AND WITHOUT RECOURSE BASIS".

Details of the assets pertaining to the Auto Division of OCL Iron & Steel Ltd offered for Sale are as under:

Particulars EMD to be No. deposited 1. Industrial Land and Building at Plot No. SP-256, Ferrous Foundry located 1 Crore at Kaharani, Rajasthan on lease for 99 years starting from 09-05-2011 having area of land admeasuring 57588.80 Sq. Meter (14.23 Acre) 2. The Plant and Machinery and the Furniture available at Plot No. SP-256, 50 Lacs Ferrous Foundry located at Kaharani, Rajasthan including: -12 mw power plant with 132 KV having capacity of 28000 Tons, etc. Combined assets of both Lot No. 1 and Lot No. 2 1.5 Crore Industrial Land & Building and the Civil Structures available at Plot No. 50 Lakhs Correspondence Add.: Ground Floor-14, Tower A, The A-285, located at Chopanki, Rajasthan which is sub-leased further on Corenthum, Sector 62, Noida - 201301, Uttar Pradesh Production linked lease, having an area of land admeasuring 12967

Sq. Meter (3.20 Acre) along with the Civil Structures.

Combined Lot of entire Assets of Auto Division cited above

5. Automotive Rolling Mill, Plant & Machinery and the Furniture, available at 50 Lakhs the premises of Plot No. A-285, located at Chopanki, Rajasthan, including: a. Cold Rolling Machine (Capacity-40 Mts per minute) b. Bar Cutting Machine (Capacity- 2-6 Mts) Combined Assets of both Lot No. 4 & Lot No. 5 Crank Case for Railways Plant located at Begumpur, Haryana, including 50 Lacs the following assets: - CNC Machine, Welding Machine, Lathe Machine, Cutting & Welding Machine, etc.

Interested parties may submit their offers along with requisite EMD in the designated bank account latest by 10.08.2023. The sale / transfer will be subject to the terms of Process Information Document. Finalisation of sale/transfer will be subject to approval of Monitoring Committee

www.arck.in. **Kindly Note:** Preference will be given to combined lots, priority wise, firstly for the entire assets of

For details, please refer to process information document published on website

Auto Division, secondly for location wise, thirdly for Plant & Machinery and Furniture and lastly for the Land & Building individually.

However, Land & Building will be sold only if offers for Plant & Machinery are received for that particular location.

> Anil Kohli Chairperson


E-AUCTION

SALE

NOTICE

3 Crores

Monitoring Committee for Auto Asset Sale of OCL Iron & Steel Ltd. Office No 409, Ansal Bhawan, K.G. Marg, Connaught Place, New Delh Email: oclautosale@gmail.com / anilkohli@arck.in Contact No.-011-40078344 / 011-45101111



@ kotak Kotak Mahindra Bank Ltd. REGISTERED OFFICE: 27, BKC, C-27, G BLOCK, BANDRA KURLA COMPLEX, BANDRA (EAST), MUMBAI - 400051

Branch: 101-102, 1st Floor, PP Trade Center, Netaji Subhash Place, Pitampura, New Delhi-110034

PUBLIC NOTICE FOR E-AUCTION FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTY LAST DATE & TIME OF SUBMISSION OF EMD AND DOCUMENTS (HARD COPY) AND (ON LINE) 09.08.2023, 04:00 PM DATE & TIME OF E-AUCTION: 10.08.2023, 11:00 AM TO 12.00 Noon

(with unlimited extensions of 5 minutes duration each till the conclusion of the sale) PUBLIC NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES MORTGAGED TO THE BANK UNDER SECURITISATION & RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS & ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT 2002 (NO. 54 OF 2002) SARFAESI ACT. Whereas, the borrower/s named hereunder have defaulted to Kotak Mahindra Bank Ltd. and owe the sums as indicated herein below and further interest thereon, Kotak Mahindra Bank Ltd., through its Authorized Officer, had taken possession of the mortgaged properties under section 13(4) of SARFAESI Act 2002 and the Bank has decided to sell the properties.

described here in below against their names, on "as is where is" and "as is what is" and "no complaint" condition, under rule 8 to 9 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002. The sale will be done by the undersigned through e-auction platform provided at the website: https://kotakbank.auctiontiger.net also on auctiontigermobileapp Reserve Price Name of Account & EMD Amount (s) as Description of the Earnest Money Deposit Borrower/ Mortgagor(s)/ REMITTANCE per demand immovable property **Account Details** Guarantor(s) notice Bid Increase Amount

M/s Bhartee Traders Non-Agricultural Property owned by Mrs. Rs. 6,54,17,994.28 as Account No. 06410125272001 (RP) Rs. 429,50,000/ (Borrower) through it proprietor Neetu Vaish and Mr. Ashok Kumar Kotak Mahindra Bank Ltd., on12.07.2023, with (EMD) Rs. 42,95,000/ Ms. Neetu Vaish, Address: Near All that piece and parcel of Residential Property further interest, costs Nariman Point Branch, Mumbai Uma Public School, Main Road being property bearing No. 10-E, area and charges thereon IFSC Code: KKBK0000958 Surajpur, Greater Noida, UP-I measuring 569 Sq. yds., situated in the residential colony Dayanand Nagar, Tehsil & Zila Ghaziabad (U.P.)-201001; together with all existing 201306. 2nd Address: E-10 buildings and structures thereon and buildings and structures as may be erected/constructed There upon any time from/after the date of Block, E Dayanand Nagar, respective mortgages and all addition thereto and all fixture and furniture's and plant and machinery attached to the earth or permanently Ghaziabad - 201001 (UP), 2. Mrs. fastened to anything attached to the earth, both present and future. The Building is bounded as under: East: Plot of Mr. Yogesh sharma. West:

Mortgagor), Address: Near Uma Together with all present and future structure thereon and all easementary / mamool rights annexed thereto. Public School, Main Road Surajpur, Greater Noida, UP - 201306. 2nd Address: E-10 Block, E Dayanand Nagar, Ghaziabad- 201001 (UP), 3. Mr. Ashok Kumar (Guarantor cum Mortgagor), Address: Near Uma Public School, Main Road Suraipur, Greater Noida, UP- 201306, 2nd Address: E-10 Block, E Dayanand Nagar, Ghazjabad - 201001 (UP) 4.Mr. Ashish Kumar Vaish (Guarantor) (Through Legal Heirs), Address: Near Uma Public School, Main Road Surajpur, Greater Noida, UP - 201306. 2nd Address: E-10 Block E Dayanand Nagar, Ghaziabad -201001 (UP)

TDS to be deducted: 1% of Auction Price

CONDITIONS FOR TDS DEDUCTION: • TDS shall be deducted and deposited in the name of the Mortgagor/s. • If the mortgaged property is jointly owned, the TDS shall be reported in the name of the first owner, unless there is a specific ratio of ownership in the sale deed, in which case the TDS shall be deducted in the proportion of their ownership ratio. • Auction

Purchaser, after depositing TDS, shall submit Form No 16A as proof of TDS payment and confirmation TERMS AND CONDITIONS OF THE SALE OF MOVABLE/IMMOVABLE PROPERTY BY WAY OF E-AUCTION:- (1) The E-Auction is being held on "AS IS WHERE IS" & "AS IS

Neetu Vaish (SRL cum Remaining Portion, North: Remaining Portion, South: Road 40 Ft.

WHAT IS BASIS", "WHATEVER THERE IS" and no Complaint basis. To the best of knowledge and information of the Authorised Officer, there are no encumbrances on the property/ies. However, the intending bidders should make their own independent enquiries regarding the encumbrances, title of property/ies put on auction and claims/rights/dues affecting the property, prior to submitting their bid. The Authorised Officer/Secured Creditor shall not be responsible in any way for any third party claims/ rights/ dues. (2) It shall be the responsibility of the bidders to inspect and satisfy themselves about the asset and specification before submitting the bid. The inspection of property/ies put on auction will be permitted to interested bidders on Bank's working days in consultation with Location Recovery Manager- ABG. (3) The intending bidders may visit the Bank's official websitehttps://www.kotak.com/en/bank-auctions.html for auction details and for the terms and conditions of sale. (the user ID and password can be obtained free of cost by registering name with "https://kotakbank.auctiontiger.net") through their login ID and Password. The EMD 10% of RESERVE PRICE shall be payable through Demand Draft/online in favor of "Kotak Mahindra Bank Limited" payable at Delhi at par and to be submitted in the concerned bank branch along with Duly Filled up & Signed Copy of Annexure II & III attached to the Tender form on or before 4.00 P.M on 09.08.2023 Tender form can also be obtained from the concerned bank branch. (4) After Registration by the bidders in the web Portal, the intending purchaser/ bidder is required to get the copies of the following documents uploaded in the web portal before last date of submission of the bid(s) viz. (i) Copy of the Demand Draft. (ii) Copy of PAN card, (iii) Proof of identification (KYC) viz. copy of Voter ID Card/ Driving License/ Passport etc., (iv) Copy of proof of address, (v) Duly Filled up & Signed Copy of Annexure II & III attached to the Tender form, without which the bid is liable to be rejected. (5) The Interested bidders who require assistance in creating login ID and password, uploading data, submitting bid, training on e-bidding process etc., may avail online training on E-Auction from M/s eprocurement Technologies Ltd. (Auction Tiger), Ahmedabad: help line Nos. 079-68136880/881/837/842/09978591888, support@auctiontiger.net, / also on Auction tiger Mobile App. and for any property related query may contact details of bank officials are: 101-102, 1st Floor, PP Trade Center Plot No. P-1, Netaji Subhash Place, New Kalyan Jewellers, New Delhi-110034, Mr. Mohit Vyas, Location Recovery Manager- ABG Mob.: 9818887403, Email id: Mohit.vyas@kotak.com, within office hours during the working days. (6) Only buyers holding valid User ID/Password and confirmed payment of EMD through Demand Draft/ online shall be eligible for participating in the online auction process. (7) Inspection of the property: Interested parties may inspect the property from 05.08.2023 between 11:00 AM to 3:00 PM. (8) The interested bidders who have submitted their EMD not below the 10% of reserve price through Demand Draft/ online before 4.00 P.M. on 09.08.2023 shall be eligible for participating in the e-auction. The e-auction of above properties would be conducted exactly on the scheduled date & time as mentioned above by way of inter-se bidding amongst the bidders. (9) The Bid price to be submitted, shall be above the Reserve Price fixed by the Authorized Officer ("AO") and bidder shall further improve their offer in multiple of INR. 25,000/- (Rupees Twenty Five Thousand Only). (10) In case bid is placed in the last 5 minutes of the closing time of the e-auction, the closing time will automatically get extended for 5 minutes (subject to unlimited extensions of 5 minutes each). The bidder who submits the highest bid (not below the reserve price) on closure of online auction shall be declared as successful bidder and a communication to that effect will be issued through electronic mode which shall be subject to approval by the Authorized Officer/Secured Creditor. (11) The Earnest Money Deposit (EMD) of the successful bidder shall be retained towards part sale consideration and the EMD of unsuccessful bidders shall be refunded in 15 working days. The Earnest Money Deposit shall not bear any interest. The successful bidder shall have to deposit 25% of the sale price (adjusting the EMD already paid) immediately or before closing of next working Day of the acceptance of bid price by the Authorized Officer and the balance 75% of the sale price shall be paid within 15 (fifteen) days of the confirmation of the sale by the Bank or such extended period as agreed upon in writing by and solely at the discretion of the AO. In case of default in payment by the successful bidder, the amount already deposited by the Bidder shall be liable to be forfeited and the property shall be put to re-auction and the defaulting bidder shall have no claim/right in respect of property/amount. (12) The prospective qualified bidders may avail online training on e-auction from M/s. e-procurementtechnologies Ltd. prior to the date of e-auction. Neither the Authorised Officer/Bank nor M/s. e-procurement technologies Ltd. shall be liable for any network problem and the interested bidders to ensure that they are technically well equipped for participating in the e-Auction event. (13) The purchaser shall bear the applicable stamp duties/additional stamp duty/transfer charges, fees etc. and also all the Statutory/ non statutory dues, taxes, rates, assessments, charges, fees etc. owing to anybody. (14) The Authorised Officer is not bound to accept the highest offer and the Authorised Officer has the absolute right to accept or reject any or all offer(s) or adjourn/postpone/cancel the e-auction without assigning any reason thereof. (15) The bidders are advised to go through the detailed terms and conditions of e-auction available on the website of M/s e-procurement Technologies Ltd. https://kotakbank.auctiontiger.net before submitting their bids and taking part in e-auction. (16) The publication is subject to the force majeure clause. (17) The sale certificate shall be issued after receipt of entire sale consideration and submission of TDS certificate under Form No 16A from the Auction Purchaser and confirmation of sale by secured creditor. The sale certificate shall be issued in the

(For detailed term & conditions please refer to website) https://kotakbank.auctiontiger.net (M/s E-procurement Technologies Ltd.) IT MAY BE TREATED AS STATUTORY 15 DAYS SALE NOTICE UNDER RULE Rule 6(2) / 8(6) & 9(1) OF THE SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES 2002: NOTE:- The borrowers/guarantors/mortgagors are hereby notified to pay the sum as mentioned above alongwith upto date interest and ancillary expenses within 15 days from the date of publication to get the property/ies redeemed, failing which the property/ies will be auctioned /sold and balance dues, if any, will be recovered with interest and cost. Place: Delhi Authorised Officer

New Delhi

necessary arrangements / alternatives such as power supply back-up etc, so that they are able to circumvent such situation & are able to participate in the auction successfully.

name of the successful bidder. No request for change of name in the sale certificate other than the person who submitted the bid / participated in thee-Auction will be entertained. (18)

The bid once submitted by the bidder, cannot be cancelled/ withdrawn and the bidder shall be bound to buy the property at the final bid price. The failure on the part of bidder to comply

with any of the terms and conditions of e-Auction, mentioned therein will result in forfeiture of the amount paid by the defaulting bidder. (19) Decision of the Authorised Officer regarding declaration of successful bidder shall be final and binding on all the bidders. The Authorised Officer shall be at liberty to cancel the e-Auction process / tender at any time, before

declaring the successful bidder, without assigning any reason. The conditional bids may be treated as invalid. Please note that after submission of the bid/s, no correspondence

regarding any change in the bid shall be entertained. The payment of all statutory / non- statutory dues, taxes, rates, assessments, charges, fees etc., owing to anybody shall be the sole responsibility of successful bidder only. In case of any dispute arises as to the validity of the bid (s), amount of bid, EMD once to the eligibility of the bidder, authority of the person

representing the bidder, interpretation and the decision of the Authorised Officer shall be final in such an eventuality, the Bank shall in its sole discretion be entitled to call off the sale and put the property to sale once again on any date and at such time as may be decided by the Bank. For any kind of dispute, bidders are required to contact the concerned authorised

officer of the concerned bank branch only. (20) Special Instructions, Bidding in the last moment should be avoided in the bidders own interest are neither the Kotak Mahindra Bank

Ltd. nor Service provider will be responsible for any lapse/failure (Internet failure/power failure etc.), in order to ward-off such contingent situations bidders are requested to make all



Franklin Templeton Mutual Fund

Registered Office: One International Center, Tower 2, 12th and 13th Floor, Senapati Bapat Marg, Elphinstone Road (West), Mumbai 400013

Income Distribution cum capital withdrawal (IDCW) in Franklin India Equity Savings Fund and Franklin India Dynamic Asset Allocation Fund of Funds

The Trustees of Franklin Templeton Mutual Fund have decided to distribute the following Income Distribution cum capital withdrawal (IDCW):

Name of the Schemes / Plans / Options	Face Value per Unit (₹)	Amount of IDCW per Unit [#] (₹)	NAV per Unit as on July 17, 2023 (₹)
Franklin India Equity Savings Fund (FIESF)	*		
FIESF - Monthly IDCW Plan	10.00	0.050	11.9816
FIESF - Monthly IDCW Plan - Direct	10.00	0.075	12.6514
Franklin India Dynamic Asset Allocation Fund of Funds (FIDAAF)		
FIDAAF - IDCW Plan	10.00	0.70	38.2902
FIDAAF - IDCW Plan - Direct] 10.00	0.85	44.6003

The Record Date for the same will be July 21, 2023 (Friday). If in case the Record Date falls on a non-Business Day, the immediately following Business Day shall be the Record Date. All the Unitholders / Beneficial Owners of the IDCW plan / option of the scheme whose names appear in the records of Registrar / Depositories as on the Record Date shall be entitled to receive IDCW. The investors in the IDCW re-investment plan/option will be allotted units for the IDCW amount at the NAV of next Business Day after the Record Date.

Please note that the IDCW payout shall be subject to the availability of distributable surplus and if the available distributable surplus as on the record date is lower than the aforementioned IDCW rate, then the available distributable surplus shall be paid out. The payout shall be subject to tax deducted at source i.e. TDS, as applicable.

Pursuant to payment of IDCW, the NAV of the scheme would fall to the extent of payout and statutory levy (if applicable).

For Franklin Templeton Asset Management (India) Pvt. Ltd. (Investment Manager of Franklin Templeton Mutual Fund)

Sd/-

Authorized Signatory Date: July 18, 2023

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully. financialexp.epapr.in

EMD to be

deposited

FINANCIAL EXPRESS

INDORE MUNICIPAL CORPORATION, INDORE

TENDER NOTICE NIT No.: 06/SBM/23-24

Online bids are invited for SITC of the following equipment. Tender forms may be purchased online by the bidders, fulfilling eligibility criteria as per RFP document.

S.No.	Name of Work	Probable Amount of Work	Cost of Tender Form	Earnest money Deposit	Time allowed for Completion
1	Supply, Installation, Testing and Commissioning of Transfer Station equipment's. (04 No. Static Compaction System with Loading Mechanism, 10 No. Detachable Containers (20 cum. Capacity) and 06 No. Hook Loader with vehicle	₹ 9.0 Cr./-	₹ 20,000/-	₹ 4.50 Lakh	06 months

Key Dates for Tender processing are as under:-

S.No.	Description	Date and Time		
1.	Last date for Purchase & submission of Tender (Online)	17.08.2023 till 17:30 Hrs.		
2.	Pre Bid Meeting at Smart City Office Nehru Park	27.07.2023 at 15:00 Hrs.		

Notes: -

Tender Document and other details shall be available on Website-www.mptenders.gov.in Amendment to NIT, if any would be published only on website www.mptenders.gov.in.

> Executive Engineer Indore Municipal Corporation, Indore

Date: 14.07.2023

MAGNA MAGNA ELECTRO CASTINGS LIMITED (CIN:L31103TZ1990PLC002836)

43, Balasundaram Road, Coimbatore 641018

Phone:0422-2240109; website:www.magnacast.com; email:info@magnacast.com

NOTICE OF THE 33RD ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING AND BOOK CLOSURE INFORMATION

Notice is hereby given that 33rd Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Saturday, 26th August, 2023 at 3.30 PM (IST) through Video Conference (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM) to transact the business, as set out in the Notice of AGM dated 30th May, 2023.

The Company has sent the Notice of AGM to those shareholders holding shares of the Company as on 17th July, 2023, through e-mail to Members whose e-mail addresses are registered with the Company / Depositories in accordance with the General Circular(s) dated 5th May 2020 read with Circulars dated 8th April, 2020, 13th April, 2020, 15th June, 2020, 28th September, 2020, 31st December, 2020, 13th January, 2021, 14th December, 2021, 5th May, 2022 and 28th December, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and Circulars dated 12th May 2020, 15th January 2021, 13th May, 2022 & 5th January, 2023 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circulars").

The AGM Notice along with the explanatory statement and the Annual Report for the financial year 2022-23 is available and can be downloaded from the Company's website www.magnacast.com and the website of Stock Exchanges in which the shares of the Company are traded/listed i.e., BSE Limited and on the website of Link Intime India Private Limited (LIIPL) at https://instavote.linkintime.co.in/.

Members can attend and participate in the Annual General Meeting through VC/OAVM facility only. The instructions for joining the Annual General Meeting are provided in the Notice of the Annual General Meeting. Members attending the meeting through VC/ OAVM shall be counted for the purposes of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration

Rules, 2014 as amended from time to time and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements Regulations, 2015, the Members are provided with the facility to cast their votes on all resolutions set forth in the Notice of the AGM using remote electronic voting system (remote e-voting) provided by LIIPL. Additionally, the Company is providing the facility of voting through e-voting system during the Annual General Meeting ("e-voting"). Detailed procedure for remote e-voting/ e-voting is provided in the Notice of the Annual General Meeting. For further details in connection with e-voting, members may also visit the website https://instavote.linkintime.co.in/.

The Board of Directors of the Company has appointed Sri. M D Selvaraj, Managing Partner of M/s. MDS & Associates LLP, Company Secretaries, Coimbatore as Scrutinizer to scrutinize the voting process in a fair and transparent manner. Members are requested to carefully read the instructions printed for voting through e-voting on the AGM Notice. Members are

also requested to note the following: 1 Date of completion of dispatch of Notice

-	Date of completion of dispatch of Notice	17 till July, 2023			
2	Date and time of commencement of remote e-voting	Wednesday, 23rd August 2023 (09.00 AM IST)			
3	Date and time of end of remote e-voting.	Friday, 25th August 2023 (05.00 PM IST)			
	Remote e-voting will not be allowed beyond this date and time.				
4	Cut-off date of determining the members eligible for e-voting	Saturday,19th August 2023			
Those Members, who shall be present in the AGM through VC / OAVM facility and had not cast their votes on the resolution through					

remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system during the AGM. A person whose name is recorded in the Register of Members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting at the Annual General Meeting. The voting rights of Members shall be in proportion to the shares held by them in the paid-up equity share capital of the Company as on the cut-off date.

The Members who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM may also attend / participate in the AGM through VC/OVAM but shall not be entitled to cast their votes again.

Any person, who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after the Notice has been sent electronically by the Company, and holds shares as of the cut-off date, may follow the detailed instructions given in the AGM Notice for accessing the e-voting platform.

In case the shareholder's email ID is already registered with the Company/its Registrar & Share Transfer Agent "RTA"/Depositories, log in details for e-voting are being sent on the registered email address.

If you have not registered your e-mail address with the Company / Depository you may please follow below instructions for obtaining login details for e-voting: Shareholders holding shares in physical mode are requested to send a request to the Registrar and Transfer Agent of the Company

S.K.D.C Consultants Limited ("SKDC") at info@skdc-consultants.com by providing Folio no., name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested), Aadhar (Self-attested) for registering the e-mail address. Shareholders holding shares in Demat mode are requested to contact your Depository Participant ("DP") and register your e-mail

address in your Demat account, as per the process advised by your DP. For details relating to remote e-voting, please refer to the Notice of the AGM. If you have any queries relating to remote e-voting please refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) and Instavote e-Voting manual available at https://instavote.linkintime.co.in, under Help Section or write an e-mail to enotices@linkintime.co.in or Call us at Tel: 022 - 49186000. In case of any grievances connected with facility for voting by electronic voting means during AGM, you can write an email to instameet@linkintime.co.in or

Call us at Tel: (022-49186175). The result of voting will be announced by the Company in its website www. magnacast.com and on the website of Link Intime India

Private Limited (LIIPL) and also will be intimated to BSE Limited Pursuant to Finance Act 2020, dividend income will be taxable in the hands of Shareholders with effect from 1st April 2020 and the Company is required to deduct tax at source from dividend paid to Shareholders at the prescribed rates. For the prescribed rates for various categories, the Shareholders are requested to refer to the Finance Act, 2020 and amendments thereof. Members are requested to submit the necessary documents to green@skdc-consultants.com from their registered mail id on or before

This public notice is also available in the Company's website viz. www.magnacast.com and in the website of LIIPL viz.

instavote.linkintime.co.in and on the website of BSE Limited where the shares of the Company are listed. Notice is hereby given that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from 20th August, 2023 to 26th August, 2023 (Both days inclusive) for AGM and payment of Dividend. Dividend for the year 2022-23, if declared at the AGM, will be paid to the Members whose name appear on the Register of Members and to the Beneficial Owners of Shares as per the details furnished by the Depositories, as the case may be, as at the close of the business hours on Saturday, 19th August, 2023

Date: 18.07.2023

Place: Coimbatore

S. E. RAILWAY – TENDER Tender Notice No.: DRMENGGRNC-61-

2023, Dated: 18.07.2023. Divisional Railway Manager/Engg/Ranchi, South Eastern Railway, Ranchi-834003 for & on behalf of President of India, invites E-Tender for the following work: Notice No.: DRMENGGRNC-61-2023. Name of work: Provision of boundary wall/Compound wall along track/approaches (around) station in Ranchi Division at Km 423/18-423/30, 423/1-423/31, 427/13-427/33, 428/3-428/15 and 427/8-427/12 with length of Boundary wall 1839 mtr. Tender Value: ₹ 3,75,94,092.83. Earnest Money: ₹ 3,38,000. Tender closing date & time: 07.08.2023 at 15.00 hrs. Tenderers can visit the website www.ireps.gov.in for online tendering.

"Form No. INC-25A" Pursuant to Rule 41 (5) (a) of the Companies (Incorporation) Rules, 2014 Before the Regional Director, Ministry of

Corporate Affairs, Northern Region, **New Delhi** In the matter of the Section 14 of the Companies Act, 2013 and Rule 41 of the Companies

(Incorporation) Rules, 2014

In the matter of **MAHAVIR CONCAST** LIMITED (CIN: U65929DL1994PLC056854 having its Registered Office at B-231- D, 1ST FLOOR, GREATER KAILASH-I, NEW DELHI-110048

NOTICE is hereby given to the General Public that the company is intending to make an application to the Central Government under section 14 of the Companies Act, 2013 read with aforesaid rules and is desirous of Converting itself into a Private Limited company in terms of the special resolution passed at the Extra Ordinary General Meeting held on 12th June, 2023 to enable the company to give effect for such conversion. Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change / status of the company, may deliver or cause to be delivered or send by registered post of his objections supported by an affidavit stating the nature of his / her interest and grounds of opposition to the Regional Director, Northern Region, Ministry of Corporate Affairs, B-2 Wing, 2nd Floor, Pt. Deendayal Antyodaya Bhawan, CGO Complex, New Delhi-110003 within Fourteen days from the date of publication of this notice with a copy to the applicant company at its Registered Office address mentioned below : B-231- D, 1ST FLOOR, GREATER KAILASH-I. NEW DELHI-110048

JAI BABBAR Date: 19.07.2023 Place: New Delhi (Director) DIN: 00963121

For & on behalf of MAHAVIR CONCAST LIMITED

Form No. INC-26 [Pursuant to rule 30 the Companies (Incorporation) Rules, 2014] Before the Central Government, Northern Region, New Delhi

of Companies Act, 2013 and clause (a) of sub-rule (5) of rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014

n the matter of GXO Logistics India Private

Limited (Formerly XPO Logistics

Worldwide India Private Limited) (CIN:-

U74999DL2004PTC131022) having its

registered office at RZ- A-219, 1st Floor Road

n the matter of sub-section (4) of Section 13

No. 5, Mahipalpur Ext. New Delhi South Delhi DL 110037 IN In Continuation of the previous publication dated 24.02.2023, Notice is hereby given to the General Public that the company proposes to make application to the Central Government under section 13 of the Companies Act, 2013, seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the special resolution passed at the Extra ordinary general meeting held on 23.02.2023 to enable the company to change its

Registered Office from the "NCT of Delhi" to

"State of Haryana". Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the company may deliver either on the MCA-21 portal (www.mca.gov.in) by filing investor compliant form or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the Regional Director at the address B-2 Wing, 2nd Floor, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, New Delhi - 110003 within fourteen days of the date of publication of this notice with a copy to the applicant company at its registered office at the address mentioned below: R.O.:- RZ- A-219, 1st Floor Road No. 5, Mahipalpur Ext. New Delhi South Delhi DL

For and behalf of GXO Logistics India Private Limited

Shailender Pandey Place: New Delhi (Company Secretary) Date: 18.07.2023 M. No. F10198

FORM A PUBLIC ANNOUNCEMENT

(Regulation 14 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India

(Voluntary Liquidation Process) Regulations, 2017) FOR THE ATTENTION OF THE STAKEHOLDERS OF **ZYTER INDIA PRIVATE LIMITED**

ZYTER INDIA PRIVATE LIMITED Name of Corporate Person Date of incorporation of Corporate Person | 03/12/2020 RoC-Delhi Authority under which Corporate Person is incorporated /registered Corporate identity number / limited liability U72900DL2020FTC374102 identity number of Corporate Person 157. Somdutt Chamber - II 9, Bhikaji Cama Place, Address of the registered Office and Principal office (if any) of Corporate Person New Delhi - 110066 Liquidation commencement date of 14/07/2023 Corporate Person

Name, address, email address, telephone Devendra Umrao Registered Address: B-43A, First Floor, Kalkaii, number and the registration number of the Liquidator New Delhi - 110019 Registered Email: devumraoibc@gmail.com Correspondence Add.: Ground Floor-14, Tower A, The Corenthum, Sector 62, Noida - 201301, Uttar Pradesh Correspondence Email: zyter.liquidation@gmail.com

Telephone/ Mobile No.: +91-9871045874

Regn. No.: IBBI/IPA-003/IP-N00223/2019-20/12640

Last date for submission of claims 13/08/2023 Notice is hereby given that Zyter India Private Limited has commenced voluntary liquidation on

14/07/2023. The stakeholders of Zyter India Private Limited are hereby called upon to submit a proof of their claims, on or before 13/08/2023, to the liquidator at the address mentioned against item 7

The financial creditors shall submit their proof of claims by electronic means only. All other stakeholders may submit the proof of claims in person, by post or by electronic means. Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.

Date: 19.07.2023

Devendra Umrao Liquidator, Zyter India Private Limited Regn. No.: IBBI/IPA-003/IP-N00223/2019-20/12640 | AFA Valid upto: November 10, 2023

JAMNA AUTO INDUSTRIES LIMITED (INI) CIN: L35911HR1965PLC004485 Yamuna Nagar - 135001, Haryana; Telephone No. 01732-251810/11/14

Regd. Office: Jai Springs Road, Industrial Area, Corporate Office: Unit No. 408,4th Floor, Tower-B, Vatika Mindscapes,

Tel. 0129-4006885; Email Id: investor.relations@jaispring.com Website: www.jaispring.com NOTICE

Sector-27D, NH2, Faridabad 121003(HR.)

Notice is hereby given, that the Board of Directors of the Company at its meeting held on May 29, 2023 has recommended final Dividend of Rs.1.10 (One Rupee Ten paisa per equity share of nominal value of Rs.1 each for the financial year 2022-23 subject t the approval of members at ensuing 57th Annual General Meeting. The record date t determine eligible shareholders entitled to receive the dividend has been fixed as Friday July 21, 2023.

In accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961 as amended by and read with the provisions of the Finance Act, 2020, the Company would be required to withhole taxes at the prescribed rates on the dividend paid to its shareholders. The withholding tax rate would vary depending on the residential status of the shareholders and the documents submitted by them and accepted by the Company. Accordingly, the final dividend will be paid after withholding the tax at source at the prescribed rates. Shareholders who wish to claim beneficial or concessional rate of withholding tax (as

per DTAA/Income Tax Act, 1961), need to submit the documents as prescribed a Company's website i.e. https://www.jaispring.com/assets/investor-relation/corporate overnance/tax-exemption-form-for-TDS.pdf to avail such beneficial or concession rates. The documents, as applicable, should be provided to the Company or Skyline Financial Services Private Limited ("Registrar & Transfer Agent") on their email-id i.e investor.relations@jaispring.com and/or parveen@skylinerta.com on or before cut-of date i.e. July 25, 2023 to enable the Company to determine the appropriate withholding tax rates. No communication on the tax determination/deduction received post cut-of date i.e. July 25, 2023 shall be considered for payment of the final dividend. It is advisable to provide the documents at the earliest to enable the Company to collate the document to determine the appropriate rates of withholding tax. Application of beneficial of concessional tax rates shall depend upon the completeness of the documents submitted by the Shareholders and review to the satisfaction of the Company.

The Company has also sent this communication to the Shareholders at their registered email id's and copy of the same is also available on the website of the Company a www.jaispring.com. For Jamna Auto Industries Limited

Place: New Delhi Praveen Lakhera Date: July 18, 2023 Company Secretary & Head-Lega

INVITATION FOR SUBMISSION OF OFFERS FOR AUTO ASSET SALE OF M/S OCL IRON AND STEEL LIMITED (CIN - L271020R2006PLC008594)

pertaining to the Auto Division on "AS IS WHERE IS, AS IS WHAT IS, WHATEVER THERE IS AND WITHOUT RECOURSE BASIS". Details of the assets pertaining to the Auto Division of OCL Iron & Steel Ltd offered for Sale, are as under:

Particulars

No.

Industrial Land and Building at Plot No. SP-256, Ferrous Foundry located 1 Crore at Kaharani, Rajasthan on lease for 99 years starting from 09-05-2011 having area of land admeasuring 57588.80 Sq. Meter (14.23 Acre) 2. The Plant and Machinery and the Furniture available at Plot No. SP-256, 50 Lacs Ferrous Foundry located at Kaharani, Rajasthan including: -12 mw power plant with 132 KV having capacity of 28000 Tons, etc. 3. Combined assets of both Lot No. 1 and Lot No. 2 Industrial Land & Building and the Civil Structures available at Plot No. 50 Lakhs A-285, located at Chopanki, Rajasthan which is sub-leased further on Production linked lease, having an area of land admeasuring 12967 Sq. Meter (3.20 Acre) along with the Civil Structures. Automotive Rolling Mill, Plant & Machinery and the Furniture, available at 50 Lakhs the premises of Plot No. A-285, located at Chopanki, Rajasthan, including:a. Cold Rolling Machine (Capacity-40 Mts per minute) **b.** Bar Cutting Machine (Capacity- 2-6 Mts) 6. Combined Assets of both Lot No. 4 & Lot No. 5 Crank Case for Railways Plant located at Begumpur, Haryana, including 50 Lacs the following assets: - CNC Machine, Welding Machine, Lathe Machine Cutting & Welding Machine, etc. 8. Combined Lot of entire Assets of Auto Division cited above interested parties may submit their offers along with requisite EMD in the designated bank

Monitoring Committee For details, please refer to process information document published on website www.arck.in. **Kindly Note:**

account latest by 10.08.2023. The sale / transfer will be subject to the terms of Process

Information Document. Finalisation of sale/transfer will be subject to approval of

Preference will be given to combined lots, priority wise, firstly for the entire assets of

Auto Division, secondly for location wise, thirdly for Plant & Machinery and Furniture, and lastly for the Land & Building individually. However, Land & Building will be sold only if offers for Plant & Machinery are received

for that particular location.

Anil Kohli Chairperson

E-AUCTION

SALE

NOTICE

Chandigarh

Monitoring Committee for Auto Asset Sale of OCL Iron & Steel Ltd Office No 409, Ansal Bhawan, K.G. Marg, Connaught Place, New Delhi Email: oclautosale@gmail.com / anilkohli@arck.in Contact No.-011-40078344 / 011-45101111



O kotak Kotak Mahindra Bank Ltd. REGISTERED OFFICE: 27, BKC, C-27, G BLOCK, BANDRA KURLA COMPLEX, BANDRA (EAST), MUMBAI - 400051

Branch: 101-102, 1st Floor, PP Trade Center, Netaji Subhash Place, Pitampura, New Delhi-110034

PUBLIC NOTICE FOR E-AUCTION FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTY LAST DATE & TIME OF SUBMISSION OF EMD AND DOCUMENTS (HARD COPY) AND (ON LINE) 09.08.2023, 04:00 PM DATE & TIME OF E-AUCTION: 10.08.2023, 11:00 AM TO 12.00 Noon

(with unlimited extensions of 5 minutes duration each till the conclusion of the sale) PUBLIC NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES MORTGAGED TO THE BANK UNDER SECURITISATION &

RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS & ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT 2002 (NO. 54 OF 2002) SARFAESI ACT. Whereas, the borrower/s named hereunder have defaulted to Kotak Mahindra Bank Ltd. and owe the sums as indicated herein below and further interest thereon, Kotak Mahindra Bank Ltd., through its Authorized Officer, had taken possession of the mortgaged properties under section 13(4) of SARFAESI Act 2002 and the Bank has decided to sell the properties. described here in below against their names, on "as is where is" and "as is what is" and "no complaint" condition, under rule 8 to 9 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002. The sale will be done by the undersigned through e-auction platform provided at the website: https://kotakbank.auctiontiger.net also on auctiontigermobileapp

Reserve Price Name of Account & Amount (s) as Description of the **Earnest Money Deposit** Borrower/ Mortgagor(s)/ REMITTANCE per demand immovable property Guarantor(s) **Account Details** Bid Increase Amount Account No. 06410125272001 M/s Bhartee Traders Non-Agricultural Property owned by Mrs. Rs. 6,54,17,994.28 as (RP) Rs. 429,50,000/ (Borrower) through it proprietor Neetu Vaish and Mr. Ashok Kumar on12.07.2023, with Kotak Mahindra Bank Ltd., (EMD) Rs. 42,95,000/ Ms. Neetu Vaish, Address: Near All that piece and parcel of Residential Property further interest, costs Nariman Point Branch, Mumbai,

Uma Public School, Main Road being property bearing No. 10-E, area and charges thereon IFSC Code: KKBK0000958 Surajpur, Greater Noida, UP-I measuring 569 Sq. yds., situated in the residential colony Dayanand Nagar, Tehsil & Zila Ghaziabad (U.P.)-201001; together with all existing 201306. 2nd Address: E-10 buildings and structures thereon and buildings and structures as may be erected/constructed There upon any time from/after the date of Block, E Dayanand Nagar, respective mortgages and all addition thereto and all fixture and furniture's and plant and machinery attached to the earth or permanently Ghaziabad - 201001 (UP), 2. Mrs. fastened to anything attached to the earth, both present and future. The Building is bounded as under: East: Plot of Mr. Yogesh sharma, West: Neetu Vaish (SRL cum Remaining Portion, North: Remaining Portion, South: Road 40 Ft. Mortgagor), Address: Near Uma Together with all present and future structure thereon and all easementary / mamool rights annexed thereto.

Public School, Main Road Surajpur, Greater Noida, UP - 201306. 2nd Address: E-10 Block, E Dayanand Nagar, Ghaziabad- 201001 (UP), 3. Mr. Ashok Kumar (Guarantor cum Mortgagor), Address: Near Uma Public School, Main Road Suraipur, Greater Noida, UP- 201306, 2nd Address: E-10 Block, E Dayanand Nagar, Ghaziabad - 201001 (UP) 4.Mr. Ashish Kumar Vaish (Guarantor) (Through Legal Heirs), Address: Near Uma Public School, Main Road Suraipur, Greater Noida, UP - 201306, 2nd Address: E-10 Block E Dayanand Nagar, Ghaziabad -201001 (UP).

TDS to be deducted: 1% of Auction Price CONDITIONS FOR TDS DEDUCTION: • TDS shall be deducted and deposited in the name of the Mortgagor/s. • If the mortgaged property is jointly owned, the TDS shall be reported in

the name of the first owner, unless there is a specific ratio of ownership in the sale deed, in which case the TDS shall be deducted in the proportion of their ownership ratio. • Auction Purchaser, after depositing TDS, shall submit Form No 16A as proof of TDS payment and confirmation

TERMS AND CONDITIONS OF THE SALE OF MOVABLE/IMMOVABLE PROPERTY BY WAY OF E-AUCTION:- (1) The E-Auction is being held on "AS IS WHERE IS" & "AS IS WHAT IS BASIS", "WHATEVER THERE IS" and no Complaint basis. To the best of knowledge and information of the Authorised Officer, there are no encumbrances on the property/ies. However, the intending bidders should make their own independent enquiries regarding the encumbrances, title of property/ies put on auction and claims/rights/dues affecting the property, prior to submitting their bid. The Authorised Officer/Secured Creditor shall not be responsible in any way for any third party claims/ rights/ dues. (2) It shall be the responsibility of the bidders to inspect and satisfy themselves about the asset and specification before submitting the bid. The inspection of property/les put on auction will be permitted to interested bidders on Bank's working days in consultation with Location Recovery Manager- ABG. (3) The intending bidders may visit the Bank's official websitehttps://www.kotak.com/en/bank-auctions.html for auction details and for the terms and conditions of sale. (the user ID and password can be obtained free of cost by registering ame with "https://kotakbank.auctiontiger.net") through their login ID and Password. The EMD 10% of RESERVE PRICE shall be payable through Demand Draft/online in favor of "Kotak Mahindra Bank Limited" payable at Delhi at par and to be submitted in the concerned bank branch along with Duly Filled up & Signed Copy of Annexure II & III attached to the Tender form on or before 4.00 P.M on 09.08.2023 Tender form can also be obtained from the concerned bank branch. (4) After Registration by the bidders in the web Portal, the intending purchaser/ bidder is required to get the copies of the following documents uploaded in the web portal before last date of submission of the bid(s) viz. (i) Copy of the Demand Draft. (ii) Copy of PAN card, (iii) Proof of identification (KYC) viz. copy of Voter ID Card/ Driving License/ Passport etc., (iv) Copy of proof of address, (v) Duly Filled up & Signed Copy of Annexure II & III attached to the Tender form, without which the bid is liable to be rejected. (5) The Interested bidders who require assistance in creating login ID and password uploading data, submitting bid, training on e-bidding process etc., may avail online training on E-Auction from M/s eprocurement Technologies Ltd. (Auction Tiger), Ahmedabad: help line Nos. 079-68136880/881/837/842/09978591888, support@auctiontiger.net, I also on Auction tiger Mobile App. and for any property related query may contact details of bank officials are: 101-102, 1st Floor, PP Trade Center Plot No. P-1, Netaji Subhash Place, New Kalyan Jewellers, New Delhi-110034, Mr. Mohit Vyas, Location Recovery Manager- ABG Mob.: 9818887403, Email id: Mohit.vyas@kotak.com, within office hours during the working days. (6) Only buyers holding valid User ID/Password and confirmed payment of EMD through Demand Draft/ online shall be eligible for participating in the online auction process. (7) Inspection of the property: Interested parties may inspect the property from 05.08.2023 between 11:00 AM to 3:00 PM. (8) The interested bidders who have submitted their EMD not below the 10% of reserve price through Demand Draft/ online before 4.00 P.M. on 09.08.2023 shall be eligible for participating in the e-auction. The e-auction of above properties would be conducted exactly on the scheduled date & time as mentioned above by way of inter-se bidding amongst the bidders. (9) The Bid price to be submitted, shall be above the Reserve Price fixed by the Authorized Officer ("AO") and bidder shall further improve their offer in multiple of INR. 25,000/- (Rupees Twenty Five Thousand Only). (10) In case bid is placed in the last 5 minutes of the closing time of the eauction, the closing time will automatically get extended for 5 minutes (subject to unlimited extensions of 5 minutes each). The bidder who submits the highest bid (not below the reserve price) on closure of online auction shall be declared as successful bidder and a communication to that effect will be issued through electronic mode which shall be subject to approval by the Authorized Officer/Secured Creditor. (11) The Earnest Money Deposit (EMD) of the successful bidder shall be retained towards part sale consideration and the EMD of unsuccessful bidders shall be refunded in 15 working days. The Earnest Money Deposit shall not bear any interest. The successful bidder shall have to deposit 25% of the sale price (adjusting the EMD already paid) immediately or before closing of next working Day of the acceptance of bid price by the Authorized Officer and the balance 75% of the sale price shall be paid within 15 (fifteen) days of the confirmation of the sale by the Bank or such extended period as agreed upon in writing by and solely at the discretion of the AO. In case of default in payment by the successful bidder, the amount already deposited by the Bidder shall be liable to be forfeited and the property shall be put to re-auction and the defaulting bidder shall have no claim/right in respect of property/amount. (12) The prospective qualified bidders may avail online training on e-auction from M/s. e-procurementtechnologies Ltd. prior to the date of e-auction. Neither the Authorised Officer/Bank nor M/s. e-procurement technologies Ltd. shall be liable for any network problem and the interested bidders to ensure that they are technically well equipped for participating in the e-Auction event. (13) The purchaser shall bear the applicable stamp duties/additional stamp duty/transfer charges, fees etc. and also all the Statutory/ non statutory dues, taxes, rates, assessments, charges, fees etc. owing to anybody. (14) The Authorised Officer is not bound to accept the highest offer and the Authorised Officer has the absolute right to accept or reject any or all offer(s) or adjourn/postpone/cancel the e-auction without assigning any reason thereof. (15) The bidders are advised to go through the detailed terms and conditions of e-auction available on the website of M/s e-procurement Technologies Ltd. https://kotakbank.auctiontiger.net before submitting their bids and taking part in e-auction. (16) The publication is subject to the force majeure clause. (17) The sale certificate shall be issued after receipt of entire sale consideration and submission of TDS certificate under Form No 16A from the Auction Purchaser and confirmation of sale by secured creditor. The sale certificate shall be issued in the name of the successful bidder. No request for change of name in the sale certificate other than the person who submitted the bid / participated in thee-Auction will be entertained. (18) The bid once submitted by the bidder, cannot be cancelled/ withdrawn and the bidder shall be bound to buy the property at the final bid price. The failure on the part of bidder to comply with any of the terms and conditions of e-Auction, mentioned therein will result in forfeiture of the amount paid by the defaulting bidder. (19) Decision of the Authorised Officer regarding declaration of successful bidder shall be final and binding on all the bidders. The Authorised Officer shall be at liberty to cancel the e-Auction process / tender at any time, before declaring the successful bidder, without assigning any reason. The conditional bids may be treated as invalid. Please note that after submission of the bid/s, no correspondence regarding any change in the bid shall be entertained. The payment of all statutory / non- statutory dues, taxes, rates, assessments, charges, fees etc., owing to anybody shall be the sole responsibility of successful bidder only. In case of any dispute arises as to the validity of the bid (s), amount of bid, EMD once to the eligibility of the bidder, authority of the person

IT MAY BE TREATED AS STATUTORY 15 DAYS SALE NOTICE UNDER RULE Rule 6(2) / 8(6) & 9(1) OF THE SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES 2002: NOTE:- The borrowers/guarantors/mortgagors are hereby notified to pay the sum as mentioned above alongwith upto date interest and ancillary expenses within 15 days from the date of publication to get the property/ies redeemed, failing which the property/ies will be auctioned /sold and balance dues, if any, will be recovered with interest and cost. Date: 18.07.2023 Place: Delhi Authorised Officer

(For detailed term & conditions please refer to website) https://kotakbank.auctiontiger.net (M/s E-procurement Technologies Ltd.)

representing the bidder, interpretation and the decision of the Authorised Officer shall be final in such an eventuality, the Bank shall in its sole discretion be entitled to call off the sale and

put the property to sale once again on any date and at such time as may be decided by the Bank. For any kind of dispute, bidders are required to contact the concerned authorised officer of the concerned bank branch only. (20) Special Instructions, Bidding in the last moment should be avoided in the bidders own interest are neither the Kotak Mahindra Bank

Ltd. nor Service provider will be responsible for any lapse/failure (Internet failure/power failure etc.). in order to ward-off such contingent situations bidders are requested to make all necessary arrangements / alternatives such as power supply back-up etc, so that they are able to circumvent such situation & are able to participate in the auction successfully.



Franklin Templeton Mutual Fund

Registered Office: One International Center, Tower 2, 12th and 13th Floor, Senapati Bapat Marg, Elphinstone Road (West), Mumbai 400013

Income Distribution cum capital withdrawal (IDCW) in Franklin India Equity Savings Fund and Franklin India Dynamic Asset Allocation Fund of Funds

The Trustees of Franklin Templeton Mutual Fund have decided to distribute the following Income Distribution cum capital withdrawal (IDCW):

Name of the Schemes / Plans / Options	Face Value per Unit (₹)	Amount of IDCW per Unit [#] (₹)	NAV per Unit as on July 17, 2023 (₹)	
Franklin India Equity Savings Fund (FIESF)			00	
FIESF - Monthly IDCW Plan	10.00	0.050	11.9816	
FIESF - Monthly IDCW Plan - Direct	10.00	0.075	12.6514	
Franklin India Dynamic Asset Allocation Fund of Funds (FIDAAF)				
FIDAAF - IDCW Plan	10.00	0.70	38.2902	
FIDAAF - IDCW Plan - Direct	10.00	0.85	44.6003	

The Record Date for the same will be July 21, 2023 (Friday). If in case the Record Date falls on a non-Business Day, the immediately following Business Day shall be the Record Date. All the Unitholders / Beneficial Owners of the IDCW plan / option of the scheme whose names appear in the records of Registrar / Depositories as on the Record Date shall be entitled to receive IDCW. The investors in the IDCW re-investment plan/option will be allotted units for the IDCW amount at the NAV of next Business Day after the Record Date.

distributable surplus as on the record date is lower than the aforementioned IDCW rate, then the available distributable surplus shall be paid out. The payout shall be subject to tax deducted at source i.e. TDS, as applicable.

Pursuant to payment of IDCW, the NAV of the scheme would fall to the extent of payout and statutory levy (if applicable).

(Investment Manager of Franklin Templeton Mutual Fund)

Sd/-

Authorized Signatory

financialexp.epap.in

For Magna Electro Castings Limited

Sri. N. Krishna Samaraj

Managing Directo

DIN: 00048547

Please note that the IDCW payout shall be subject to the availability of distributable surplus and if the available

For Franklin Templeton Asset Management (India) Pvt. Ltd.

Date: July 18, 2023 Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.